

Saffron Capital Advisors Private Limited

605, 6th Floor, Centre Point, Andheri Kurla Road J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai – 400 059 Tel.: +91 22 40820912 | Fax: +91 22 4082 0999

Email: info@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com CIN: U67120MH2007PTC166711

January 12, 2022

Listing Department **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai – 400 001

Sub: Proposed Open Offer by Vibhu Maurya ("Acquirer") to acquire upto 8,00,000 equity shares of Rs.10/- each for cash at a price of ₹ 16.00/- plus an interest component (as stated in Letter of offer) aggregating upto Rs.1,28,00,000 (excluding interest) (Indian Rupees One Crore Twenty Eight Lacs Only) to the public shareholders of OneSource Ideas Venture Limited ("Target Company") in accordance with the extant Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("Takeover Regulations") ("Open Offer").

Dear Sir,

In reference to the captioned matter. We are attaching herewith a copy of the Pre Offer Advertisement cum Corrigendum dated January 11, 2022 published in the following newspapers and editions:-

1. A copy of Pre - Offer Advertisement Cum Corrigendum dated January 11, 2022, ("POACC") was published today i.e. January 12, 2022 in the following newspapers:-

Sr. No.	<u>Newspapers</u>	<u>Language</u>	<u>Editions</u>
1	Financial Express	English	All Editions
2	Jansatta	Hindi	All Editions
3	Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai
4	Makkal Kural	Tamil	Chennai -Registered Office of the Target Company

In case of any clarification required, please contact the undersigned on (D) 9619691801, Email – varsha@saffronadvisor.com



Varsha Gandhi Manager Equity Capital Markets **FINANCIAL EXPRESS**

SANOFI INDIA LIMITED (Formerly known as AVENTIS PHARMA LIMITED) Registered Office: Sanofi House, CTS No. 117-B, L & T Business Park, Saki Vihar Road,

Powai, Mumbai-400072 NOTICE is hereby given that the certificates for the undermentioned shares of the company has been ost and the legal heir of the said certificate have applied to the company for issue of duplicate shar partificate. Any person who has any claim in respect of the said certificates should lodge such claim to he Registered Office with 15 days from the date of publication of this Notice. In the absence of any claim he Company shall proceed to issue duplicate certificate without further intimation Cert No Start Dist No. End Dist No. Shares Name of the Shareholder Late Dattatray Narayan Maluste 00075840 15726 8327881 8327930 Late Dattatray Narayan Maluste 20905523 20905572 00075840

SANOFI INDIA LIMITED Place: Mumbai GIRISH TEKCHANDANI Date: 11/01/2022 COMPANY SECRETARY



DIPLOMA IN PACKAGING THROUGH CORRESPONDENCE Course Duration 18 Months

Last date is extended till 31" January 2022

Eligibility:-Graduate in Science, Commerce, Arts, Engineering and Technology from UGC recognized University / Diploma from recognized technical board in Engineering / Technology are eligible for the course. Candidates should have minimum one-year industrial experience in the operational area like Production, Purchase, Marketing and Quality Control etc. Age: No age limit

For more details, please visit our website - www.iip-in.com & submit application form through Online. Contact Details :-

Mr. Nitin Raibole, T & E; +91-8692943727 Ms. Sreeja Balaji, T & E; +91-869185391 Mr. A.S. Ravi, A.D. T & E; +91-9869620990 Mr. Bhushan Surpur, A.D. +91-9821022112 Dr. Babu Rao Guduri, J.D. & Head T & E; +91-7208119238



Digitally Signed & unconditional online tenders in form B-2 Agreement are invited by the Executive

Engineer, Division-I, Nagpur Housing & Area Development Board, Nagpur, Gruha Nirman Bhavan, Opp. Deshpande Hall, Civil Lines, Nagpur- 440001, Phone No. 07122560649 & Fax no. 07122564939, Email ID: exengr01@gmail.com. It is not necessary for bidder to registered with state PWD/CPWD/MES/MHADA/CIDCO or any other Govt. agency / organization undertaking. The eligibility criteria is as per PWD Govt. circular no. Sankirna-2017/C.R.121 (part+II)Building. 2 https://mahatenders.gov.in.

Name of Work

Estimate Cost

EMD @ 0.5%

Cost of Documents

Pre bid meeting

Period for Completion of work

Document sale Start to End

: Construction of Proposed Administrative Office Building for Nagpur Housing and Area Development Board At. Kh. No.12/1, Mouza Gadga, Civil Lines, Nagpur.

Rs. 58,08,91,376/-Rs.29,04,457/-

30 months (including monsoon)

Rs. 3,540/- (including GST). 12/01/2022@15.00 Hrs. To 08/02/2022@17.00 Hrs.

21/01/2022 @ 12.00 Hrs. 12/01/2022@15.00 Hrs. To 08/02/2022@17.00 Hrs.

Bid submission Start to End Technical Bid Opening 09/02/2022 @ 15.00 Hrs.

Opening Authority Dy. Chief Engineer / Nagpur Board.

The detail tender notice and all other details are available on portal for e-tender. Contractor is required to get enrolled on the portal https://mahatenders.gov.in and get empanelled in relevant sub

portal. The registered contractor has to obtain the Digital Certificate. The tender document will be published online on the website https://mahatenders.gov.in on dt. 12/01/2022.

Executive Engineer - I Nagpur Housing And Area Development Board, Nagpur.

PARIVARTAN BUILDTECH PRIVATE LIMITED (In Liquidation) Liquidator: Mrs. Deepika Bhugra Prasad

Liquidator Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash-I, New Delhi -110048 Email: ssetsale2@aaainsolvency.in | parivartan@aaainsolvency.com

Mob.: 8800865284 (Mr. Wasim & Mr. Puneet Sachdeva) E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date and Time of E-Auction: 25" January, 2022 at 12.00 pm to 2.00 pm Last Date of EMD submission: 24th January, 2022 (With unlimited extension of 5 minutes each) Sale of Assets and Properties owned by Parivartan Buildtech Private Limited

Assets

(in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench-II, New Delhi vide order dated 17th August, 2020. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://aaa.auctiontiger.net.

Block Reserve

Initial Incremental

nootio	Dicon.	Price (INR)	EMD Amt. (INR)	Value (INR)
Tipper Trucks- MAHINDRA BLAZO 25 (6x4) (Qty. 01) (Burnt Condition) at Village Bhagwanpur, Isagarh, Distt. Ashok Nagar, Madhya Pradesh (MP07HB5892)	A	3.63 Lacs	36 Thousand	50 Thousand
Plant and Machinery at Village Bhagwanpur, Isagarh, Distt. Ashok Nagar, Madhya Pradesh	В	73.35 Lacs	7 Lacs	3 Lacs
Gen Set 600 KVA- Located at Near Nokha minerals, Village Bhogas, Sarund, Bikaner	С	11.91 Lacs	1 Lacs	40 Thousand
Plant and Machinery at Digha, Benskothi, Gate no. 97, Junglepeer, Post Digha, Patna, Bihar (Including Concrete Batching Mixing Plant, 140 KVA and 250 KVA DG Set)	D	44.13 Lacs	4 Lacs	1 Lacs
Civil Contractor Construction Equipments – Mahindra Road Master G75 Grader (Qty-2) at Village Bhagwanpur, Isagarh, Distt. Ashok Nagar, Madhya Pradesh. (Separate E-auction for each equipment can be done)	E,	25.40 Lacs	2.50 Lacs	50 Thousand per Const. equipment
Civil Contractor Construction Equipment's - Power Pavers SF 1700 (Qty-2) at Village Bhagwanpur, Isagarh, Distt. Ashok Nagar, Madhya Pradesh. (Separate E-auction for each equipment can be done)	F.	1.50 Crores	15 Lacs	2 Lacs Per Const. equipment
All the assets under Block A-F (Consolidated)	G	3.0842 Crores	30 Lacs	5 Lacs

service provider i.e. https://aaa.auctiontiger.net and at the website of AAA Insolvency Professionals LLP i.e.https://insolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/parivartangroup-pvt-ltd/ Deepika Bhugra Prasad Liquidator in the matter Parivartan Buildtech Private Limited IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/11186) Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash - I, New Delhi -110048

IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" through approved service provider i.e. E-Procurement

Technologies Limited and the terms and conditions shall be referred to at the website of the

Email: assetsale2@aaainsolvency.in, assetsale1@aaainsolvency.in, deepika.bhugra@gmail.com Date: 12/01/2022 Contact Person: Mr. Wasim & Mr. Puneet Sachdeva: +91-8800865284 SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED

Registered Office: Plot No.31&32, Ramky Selenium Towers, Tower A, Ground Floor, Financial Dist., Nanakramguda, Hyderabad - 500032 (TG). Website: www.spandanasphoorty.com | Phone No.: 040-45474750 |

E-mail: secretarial@spandanasphoorty.com

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

the Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the relaxations and clarifications issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') vide General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15 2020. General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 and General Circular No.20/2021 dated December 8, 2021 ('MCA Circulars') and Circular Nos SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P 2021/11 dated January 15, 2021issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') we are furnishing the following details:

a)The business to be transacted through voting only by electronic means - for seeking approva of the Members for the issue of securities by means of Qualified Institutional Placements ("QIPs") b)Date of completion of dispatch of Postal Ballot Notice to Members through e-mail - Tuesday,

c) The Company has sent an email of the Postal Ballot Notice dated January 11, 2022 to all the Members whose name appeared on the Register of Members/ Record of Depositories received from National Securities Depository Limited/ Central Depository Services (India) Limited

(Depositories) as on Friday, January 7, 2022 (cut-off date) and whose email addresses are registered with depository participant(s). A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this advertisement for information purpose only.

d)The requirements of sending physical Postal Ballot Notice to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars. e)Details of the process and manner of remote e-voting along with the User ID and password are provided over email to all Members who have registered their email addresses. The instructions for voting through electronic means are provided to all Members as part of the Postal Ballot Notice.

f) The Company has engaged KFin Technologies Private Limited ('KFintech') for facilitating

g) For Members who have not registered their email addresses or have not received email the Postal Ballot Notice may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com secretarial@spandanasphoorty.com or contact KFintech, Company's Registrar and Share Transfer Agent at 1800-309-4001 or the Company at 040-4547 4750 between 10.00 am and 5.00 pn on all working days (except Saturday and Sunday) till 48 hours prior to the closure of the voting period. n)Members who have not registered their email address and in consequence could not receive the Postal Ballot Notice may temporarily get their email address registered with the RTA, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot and following the registration process as guided thereafter. Post successful registration of the email address, the Member will receive soft copy of the Postal Ballot Notice at his/her registered email address and the procedure for e-voting along with the User ID and the Password to enable remote e-voting for this Postal Ballot Notice. In case of any queries, Member may write to einward.ris@kfintech.com.

register their email addresswith the Depositories /Depository Participant. i)The date and time of commencement of voting through electronic means - Wednesday, January 12, 2022 (10:00 Hours IST) k) The date and time of end of voting through electronic means - Thursday, February 10, 2022

i)It is clarified that for permanent registration of email address, the Members are however requested to

(17:00 Hours IST). The remote e-voting platform will be disabled at 17:00 Hours IST on Thursday, February 10, 2022 by KFintech. Once the vote on resolution is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.

m)Website address where Postal Ballot Notice is displayed - Company www.spandanasphoorty.com and KFintech - https://evoting.kfintech.com. Postal Ballot Notice is also submitted to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and the same are also available on their websites. n)Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the remote e-voting: Mr. Ramesh Periasamy, Company Secretary and Compliance Officer, Corporate Office -Plot No: - 31 & 32, Ramky Selenium, Tower A, Ground Floor, Financial District, Nanakramguda

Hyderabad-500032 (TS). Telephone Number: 040-45474750(except Saturday and Sunday). Email Id: secretarial@spandanasphoorty.com. o) The Company has appointed Mr. Y Ravi Prasada Reddy (Membership No. FCS 5783), Proprietor, RPR & Associates, Practicing Company Secretaries (CP No. 5360), Hyderabad as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process thereto in accordance with the provisions of the Act

read with the Rules and the MCA Circulars in a fair and transparent manner. e results of the remote e-voting will be declared on Friday, February 11, 2022 at the Reg office of the Company, the results of the remote e-voting along with the scrutinizer's report will be uploaded on the Company's website www.spandanasphoorty.com and will be communicated to the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com, where the equity shares / securities of the Company are listed.

By the Order of the Board of Directors of For Spandana Sphoorty Financial Limited

Revised Day and Date

Place: Hyderabad Date: January 11, 2022

e-voting in a secure manner.

Ramesh Periasamy **Company Secretary and Compliance Officer**

OFFICE OF THE EX. ENGINEER (CIVIL) PLANT WW C/o CE(WW) DELHI JAL BOARD: GOVT.OF N.C.T.DELHI CHANDRAWAL: WATER WORKS NO.II CIVIL LINES: DELHI-54 Office Telphone No.:-23815504

E-mail:- eecplantww.djb02@gmail.com PRESS NIT No. 32 (Item No.1, 2, 3, 4 & 5)/(2021-22) Estimated Earnest Money Tender Publication Last date & time

	No.	Name of Work	Cost	(Fresh) ❖ As per the clause of additional information of NIT Para No. I/C-(i)	Proce- ssing Fee (Fresh)	date of tender in e- procurement Solution	for receipt of tender from e- procurement solution
ľ		Construction of Sump near Raw Water Pump House at Haiderpur WW Phase-I. (Tender ID: 2022_DJB_ 214430_I)	5212289/-	104300/-	1000/-	10.01.2022	24.01.2022
l		Special repair and renovation of administrative building at Haiderpur Water Works. (Tender ID: 2022_DJB_214435_1)	4703920/-	94100/-	500/-	10.01.2022	24.01.2022
l		Special repair/renovation of Automation Building and Store Room at Haiderpur WW-II. (Tender ID: 2022_DJB_214437_1)	3266367/-	65500/-	500/-	10.01.2022	24.01.2022
		Development of Auditorium/ Conference Hall /Training Centre in place of Alum Storage House at Haiderpur WW-II. (Tender ID: 2022_DJB_214439_1)		88500/-	500/-	10.01.2022	24.01.2022
		Special repair/renovation of Administrative Block at Bawana Water Treatment Plant. (Tender ID: 2022_DJB_214442_1)	3791691/-	75900/-	500/-	10.01.2022	24.01.2022

The more detail required above can be seen on website www.delhi.govtprocurement.com

EX. ENGINEER(C) PLANT, WW ISSUED BY P.R.O. (WATER) Advt. No. J.S.V. 990 (2021-22) C/o ACE(P)-2 "STOP CORANA; WEAR MASK, FOLLOW PHYSICAL DISTANCING, MAINTAIN HAND HYGIENE"

NATIONAL STANDARD (INDIA) LIMITED CIN: L27109MH1962PLC265959

Regd. Office: 412, Floor- 4, 17G, Vardhaman Chamber, Cawasji Patel Road, Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400 001; **Tel.:** 912261334400; **Fax:** +912223024420 Website: www.nsil.net.in; E-mail: Investors.nsil@lodhagroup.com

EXTRACTS OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE **MONTHS ENDEDE 31-DECEMBER-2021** For the

No.	Particulars	Quarter ended	Nine months ended	quarter ended
		31-Dec-21	31-Dec-21	31-Dec-20
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	442.32	2,358.62	316.30
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (before			
	Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	374.26	1,987.72	266.80
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after			
	Exceptional and / or Extraordinary items)	374.26	1,987.72	266.80
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after			
	Exceptional and / or Extraordinary items)	286.45	1,433.84	172.05
5	Total Comprehensive Income for the period			
	[(Comprising Profit / (Loss) for the period			
	(after tax) and Other Comprehensive Income			
	(after Tax)]	286.45	1,433.84	172.05
6	Equity share capital (Face Value of Rs. 10 each)	2000.00	2000.00	2000.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as			
	shown in the Audited Balance Sheet of the			
	previous year		19,154.28	
8	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10 each)			
	(not annualised)			
	Basic and Diluted	1.43	7.17	0.86

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.nsil.net.in.

NOTE

Sr.

For and on behalf of the Board For NATIONAL STANDARD (INDIA) LIMITED **Smita Ghag** Place: Mumbai (Director) DIN: 02447362 Date: 11th January 2022

SANATHNAGAR ENTERPRISES LIMITED

CIN: L99999MH1947PLC252768

Read. Office: 412, Floor- 4, 17G, Vardhaman Chamber, Cawasji Patel Road, Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400 001; Tel.: 91.22.61334400; Fax: +91.22.23024420 Website: www.sanathnagar.in; E-mail: Investors.SEL@lodhagroup.com STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31-DECEMBER-2021

No.	Particulars	Quarter ended	Nine months ended	quarter ended
		31-Dec-21	31-Dec-21	31-Dec-20
= 0		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	0.50	0.72	-
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (before			
	Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(11.57)	(20.04)	(7.48)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax			
	(after Exceptional and / or Extraordinary items)	(11.57)	(20.04)	(7.48)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax			
	(after Exceptional and / or Extraordinary items)	(11.57)	(20.04)	(13.81)
5	Total Comprehensive Income for the period			
	[(Comprising Profit / (Loss) for the period (after			
	tax)and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(11.57)	(20.04)	(7.48)
6	Equity share capital (Face Value of Rs. 10 each)	315.00	315.00	315.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as			
	shown in the Audited Balance Sheet of the			
	previous year		(1,449.37)	
	l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	I	I I	

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.sanathnagar.in.

Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10 each)

(not annualised) Basic and Diluted

finabatian Mumbai

NOTE

For and on behalf of the Board For Sanathnagar Enterprises Limited Sanjyot Rangnekar (Director) DIN: 07128992

(0.64)

(0.24)

For the

For the

For the

(0.37)

Pre- Offer Advertisement under Regulation 18(7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended, and Corrigendum to the Detailed Public Statement for the attention of the public shareholders of

ONESOURCE IDEAS VENTURE LIMITED

Open Offer by Mr. Vibhu Maurya ("Acquirer") to acquire upto 8.00.000 Equity shares of Rs. 10/- each for cash at a price of Rs. 16/- (Rupees Sixteen only) per Equity Share plus an Interest component ^ of

Registered Office: J.J. Manor, 2nd Floor, 146, Rukmani Lakshmipathy Road, Egmore, Chennai - 600 008, Tamil Nadu, India; Tel. No.: +91 44 4213 4343; Email: cs@osivl.com; Website: www.osivl.com;

₹ 7.54 (Rupees Seven & paise fifty four only) per Equity Share aggregating upto Rs. 1,88,32,000/- (Rupees One Crore Eighty Eight Lacs Thirty Two Thousand only), to the Public shareholders of Onesource Ideas Venture Limited ("Target Company") in accordance with the extant Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations") ("Open Offer"). This Advertisement in accordance with Regulation 18(7) of the Takeover Regulations and Corrigendum to the Detailed Public Statement ("DPS") and is to be read together with: (a) the Public Announcement dated

October 13, 2021 ("PA"); (b) the Detailed Public Statement published on October 22, 2021 in Financial Express (English daily) all editions, Jansatta (Hindi daily) all editions, Mumbai Lakshdeep (Marathi daily)

Mumbai edition and Makkal Kural (Regional language newspaper (Tamil, Chennai) where the Registered Office of the Target Company is situated) ("DPS") (d) the Letter of Offer dated January 01, 2022 ("LOF") is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited, on behalf of the Acquirer in respect of the Open Offer ("Pre Offer Advertisement cum Corrigendum"). The shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following: Offer Price is ₹ 16.00 /- (Rupees Sixteen Only) per Equity Share plus an Interest component ^ of ₹ 7.54 (Rupees Seven & paise fifty four only) per Equity Share ("Offer Price") payable in cash pursuant to the Securities

and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (as amended) (SEBI (SAST) Regulations). There has been no upward revision in the Offer Price.

^ The interest amount shall however be payable to only those public shareholders who were holding shares in the Target Company when the previous open offer obligation had been triggered by Seller 2 (on May 27, 2017) and continue to remain as public shareholders till date. Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company has recommended that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI (SAST) Regulations. Further, IDC

is of the view that the Offer Price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI (SAST) Regulations. The IDC's recommendation was published on January 11, 2022 in the same newspapers in which the DPS was published. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations.

The dispatch of the LOF to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date (being Thursday, December 30, 2021) has been completed on Tuesday,

January 04, 2022 (through registered post/speed post) and Thursday, January 06, 2022. (through electronic mode). Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer" at page 31 of the LOF in relation to inter alia the procedure for tendering their Equity

Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein. A copy of the LOF (which includes the Form of Acceptance) will also be available on the websites of SEBI (https://www.sebi.gov.in), the Target Company (www.osivl.com), the Registrar to the Offer

(www.purvashare.com), the Manager (www.saffronadvisor.com), BSE (www.bseindia.com) from which the Public Shareholders can download / print the same. Instructions for Public Shareholders: In case the Equity Shares are held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned on page 32 and page 33 of the LOF along with Form SH-4.

In case the Equity Shares are held in dematerialised form: Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified on page 32 of the LOF. The Public Shareholders holding Shares in Demat mode are not required to fill any Form of Acceptance. In case of non-receipt of the LOF, the Public Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating

name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in the LOF. Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform by the Selling Broker which will be made available by BSE before the closure of the Tendering Period. The interest component of Rs. 7.54 which shall be payable to only those public shareholders who were holding shares in the Target Company on May 27, 2017 and continue to remain as public shareholders till date as stated in the Letter of Offer dated January 01, 2022 and who have validly tendered their shares in this Open Offer will be settled separately by Registrar to the Offer i.e Purva Shareregistry (India)

Status of Statutory and Other Approvals: As of the date of the LOF, to the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory or other approvals required to complete the Offer. 10. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on October 29, 2021. All observations received from SEBI by way of their letter no. SEBI/HO/CFD/

DCR2/P/OW/2021/39695/1 dated December 28, 2021 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations have been incorporated in the LOF.

11. Schedule of Activities: Original Day and Date Activity

original bay and bato	rictiona bay and bate
Wednesday, October 13, 2021	Wednesday, October 13, 2021
Friday, October 22, 2021	Friday, October 22, 2021
Friday, October 29, 2021	Friday, October 29, 2021
Tuesday, November 16, 2021	Tuesday, November 16, 2021
Wednesday, November 24, 2021	Wednesday, December 28, 2021
Friday, November 26, 2021	Thursday, December 30, 2021
Friday, December 03, 2021	Thursday, January 06, 2022
Thursday, December 09, 2021	Wednesday, January 12, 2022
Wednesday, December 08, 2021	Tuesday, January 11, 2022
Thursday, December 09, 2021	Wednesday, January 12, 2022
Friday, December 10, 2021	Thursday, January 13, 2022
Thursday, December 23, 2021	Thursday, January 27, 2022
Thursday, January 06, 2022	Thursday, February 10, 2022
Thursday, January 13, 2022	Thursday, February 17, 2022
	Wednesday, October 13, 2021 Friday, October 22, 2021 Friday, October 29, 2021 Tuesday, November 16, 2021 Wednesday, November 24, 2021 Friday, November 26, 2021 Friday, December 03, 2021 Thursday, December 09, 2021 Wednesday, December 08, 2021 Thursday, December 09, 2021 Friday, December 10, 2021 Thursday, December 10, 2021 Thursday, December 23, 2021 Thursday, January 06, 2022

* Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all the shareholders holding Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except the Acquirer, Sellers and Promoter and Promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.

Capitalised terms used but not defined in this Pre Offer Advertisement cum Corrigendum Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Public Announcement and/or DPS and/or LOF. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations. This Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued on behalf of the Acquirer by the Manager to the Offer

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

605, Sixth Floor, Centre Point, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059, India; Tel. No.: +91 22 4082 0906; Fax No.: +91 22 4082 0999; Email id: openoffers@saffronadvisor.com; Website: www.saffronadvisor.com;

Investor grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com; SEBI Registration Number: INM 000011211; Validity: Permanent; Contact Person: Varsha Gandhi

Registrar to the Offer



PURVA SHAREREGISTRY (INDIA) LIMITED

Unit No.9, Ground Floor, Shiv Shakti, Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai — 400011, Maharashtra, India: Tel. No.: +91 22 2301 2518 / 8261; Fax: Not Available Email id: support@purvashare.com; Website: www.purvashare.com Investor Grievance: support@purvashare.com

SEBI Registration Number: INR00001112; Validity: Permanent; Contact Person: Deepali Dhuri

Place: Mumbai, Maharashtra Date: January 11, 2022

Contact JITENDRA PATIL Mobile No.:

DUNCAN ENGINEERING LIMITED

(Formerly Schrader Duncan Limited) Regd Office: F-33 Ranjangaon MIDC

Karegaon, Tal. Shirur, Pune-412 209

Phone: 021-38660066.

Email:complianceofficer@duncanengg.com

CIN: L28991PN1961PLC139151

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant

to Regulation 29 of SEBI (Listing

Obligation and Disclosure Requirements)

Regulation, 2015 and other relevant

Regulations, a Meeting of Board of

Directors of the Company will be held

on Tuesday, 25th January 2022, inter

alia, to consider and approve the

standalone unaudited Financial Results

of the Company for the quarter ended

The notice is available in the website of

the Company www.duncanengg.com

and also on the website of the stock

Date: January 10, 2022 Company Secretary

For

Advertising in

TENDER PAGES

For Duncan Engineering Limited

Rajib Kumar Gope

exchange www.bseindia.com.

31st December, 2021.

Place: Pune

Sd/-

9029012015 Landline No.: 67440215

मांडविया ने डिजिटल माध्यम से देशभर के 120 चिकित्सकों से बात की

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 11 जनवरी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को डिजिटल माध्यम से देशभर के विशेषज्ञ चिकित्सकों से कोरोना की स्थिति पर चर्चा की और उनके सुझावों को सुना।

ने ट्वीट किया कि वर्तमान कोरोनाा परिस्थितियों को लेकर देशभर के 120 विशोषा जा

चिकित्सकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। उनके दिए गए सुझावों को सुना और संबंधित निर्देश दिए। मुझे विश्वास है कि हम सब एक कड़ी की तरह मिलकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई के कार्य करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसके साथ ही इस संवाद की एक तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा की है। मांडविया ने सोमवार को प्रदेश. मध्य राजस्थान, गुजरात, गोवा, दादरा-नागर हवेली और के दमन-दीव स्वास्थ्य मंत्रियों. शीर्ष नौकरशाहों और सूचना आयुक्तों के साथ कोरोना के प्रसार को रोकने की तैयारियों और राष्ट्रीय

अभियान की समीक्षा के लिए

टीकाकरण

कोरोनारोधी

बैठक की थी।

पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे

श्रीनगर, 11 जनवरी (भाषा)।

गुलमर्ग और पहलगाम में भीषण ठंड के साथ ही घाटी के अधिकतर हिस्सों में न्युनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि गुलमर्ग रिजार्ट में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान शन्य से 10.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। गुलमर्ग में लगातार तीन दिनों से न्यूनतम तापमान शून्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे या उससे कम रहा। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 10.4 डिग्री सैल्सियस नीचे रहा।

जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में रविवार रात न्युनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रहा। काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। वहीं, दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग में तापमान शुन्य से नीचे 1.7 डिग्री सेल्सियस और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में शून्य से तीन डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। कश्मीर में 40 दिन का चिल्लई कलां का दौर 21 दिसंबर से शुरू हो गया।



ए-11, सेक्टर-24, नोएडा-201301, जिला-गौतगबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश फोन नं. : 0120-2412294, फैक्स नं. : 0120-2412397 कोल हैंडलिंग एजेंट की नियक्ति

नेशनल फर्टिलाइजुर्स लिमिटेड बीसीसीएल से नंगल, बठिंडा एवं पानीपत में स्थित एनएफएल यूनिटों तक कोयले की आपूर्ति के लिए कोल हैंडलिंग एजेंट नियुक्त करने को इच्छ्क है। टेंडरिंग की प्रक्रिया ई-टेंडर (ID:2022_NFL_101272_1) है। योग्यता मापदंडों एवं अन्य विवरणों के लिए कृपया https://etender.gov.in/eprocure/app या हमारी वेबसाइट www.nationalfertilizers.com को देखें। ऑनलाइन निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 24.01.2022 को प्रातः 10:00 बजे तक है। शुद्धिपत्र (यदि कोई होगा) तो उसे केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. पंजीकृत कार्यालयः कॉनकॉर मवन, सी-3, मधुरा रोड, नई दिल्ली-110076 सीआईएन: L63011DL1988GOI030915, दूरमाप संख्या: 011—4122 2500 / 600 / 700 ई-मेल: co.pro@concorindia.com, वेबसाइट http://www.concorindia.co.in

@ @NFL_Kisan (F) @nationalfertilizers (S) National Fertilizers Limited

कॉनकॉर आईबी (आइसबैटरी) कंटेनरों के लिए तापमान संवेदनशील कार्गो प्रदान करने के लिए कार्गो प्रदाता के चयन के लिए कॉनकॉर खुली निविदा (एकल बोली मोड) आमंत्रित करता है। ई-मोड में ओपन टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 31.01.2022 है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.tenderwizard.com@CCIL देखें। संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

दिनांक 10.01.2022

कार्यकारी निदेशक (डी एंड एल)



दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः कार्यापालक अभियंता (सिविल)-प्लान्ट डब्ल्युडब्ल्यु सी/ओ सीईई (डब्ल्यु डब्ल्यु), चन्द्रावल वाटर वर्क्स नं. II, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54, कार्यालय टेलीफोन नं.: 23815504, मेल आईडी: eecplantww.djb02@gmail.com

प्रैस एन.आई.टी. सं. 32(मद सं. 1.2.3.4 एवं 5)/(2021-22) कार्य का विवरण धरोहर राशि (नया) निविदा | ई-प्रापण सॉल्यशन | ई-प्रापण सॉल्यशन *एनआईटी पैरा नं. 1/सी-के माध्यम से सं. प्रोसेसिंग के माध्यम से निविदा के प्रकाशन निविदा प्राप्ति की (i) की अतिरिक्त जानकारी शुल्क अंतिम तिथि रसमय के क्लॉज के अनसार (नया) की तिथि हैदरपुर डब्ल्यूडब्ल्यू फेज−1 में रॉ वाटर पम्प हाउस के निकट सम्प 5212289/-104300/-1000/-10.1.2022 24.01.2022 का निर्माण। निविदा आईडी: 2022 DJB 214430 1 2. हैदरपुर वाटर वर्क्स में प्रशासनिक भवन का विशेष मरम्मत तथा 4703920/ 94100/-500/-10.1.2022 24.01.2022 नवीकरण। निविदा आईडी: 2022 DJB 214435 1 3. हैदरपुर डब्ल्यूडब्ल्यू-II, में ऑटोमेशन बिल्डिंग तथा 3266367/-65500/-10.1.2022 24.01.2022 मरम्मत/नवीकरण। **निविदा आईडी**: 2022 DJB 214437 4. हैदरपुर डब्ल्युडब्ल्यु-II, में एलम स्टोरेज हाउस की जगह 4420788/-88500/-10.1.2022 24.01.2022 ऑडिटोरियम/कान्फ्रेन्स हॉल/ प्रशिक्षण केन्द्र का विकास। निविदा आईडी: 2022 DJB 214439 1 5. बवाना वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में प्रशासनिक ब्लॉक का विशेष 3791691/-75900/-500/-10.1.2022 24.01.2022 मरम्मत/नवीकरण। **निविदा आईडी**: 2022 DJB 214442 1

आगे वांछित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.delhi.govtprocurement.com पर देखी जा सकती है। पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी

कार्य.अभियंता (सी)प्लान्ट, डब्ल्यूडब्ल्यु सी/ओ एसीई(पी)-2

"कोरोना रोकें; मास्क पहनें, शारीरिक दुरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें"

(वसुंधरा एनक्लेव दिल्ली-110096)

यूनियन क्रिक 🕼 Union Bank AND AND STREET

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 990(2021-22)

फोन नं. 011-41440057/58/59

परिशिष्ट IV [नियम-8 (1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतू)

जबकि, अधोहरताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **युनियन बैंक ऑफ इंडिया,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा. उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित** के अनुसार लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा

संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर** भविष्य का ब्याज, आकरिमक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	खाते / कर्जदार का नाम एवं पता	बंधक / प्रभारित सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि
1	श्री भूपनेश चंद गौनियाल और सुश्री गणेशी और गारंटर श्री बिश्वेश्वर प्रसाद	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. यूजी-2 (एमआईजी), प्लॉट नं. 348, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन ।, साहिबाबाद, गाजियाबाद में स्थित, चौहदी : उत्तर में – रोड़, दक्षिण में – सीढ़ियां और सर्विस लेन, पूरव में – फ्लैट नं. यूजी 1, पश्चिम में – प्लॉट नं. 349	20-10-2021 06-01-2022	रु. 1,80,286/- दिनांक 01.10.2021 तक और भविष्य का ब्याज
2	श्री तेजवीर सिंह और गारंटर श्री दिनेश कुमार	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फलैट नं. एफ-2 (एमआईजी), प्लॉट नं. 111/24, सैक्टर-3, वैशाली, गाजियाबाद में स्थित, चौहरी: उत्तर में – फलैट नं. एफ-04, दक्षिण में – प्लॉट नं. 25, पूरब में – गालियारा और फ्लैट नं. एफ-01, पश्चिम में – रोड, भूतल	11-02-2020 06-01-2022	रु. 2,92,895/- दिनांक 09.02.2020 तक और भविष्य का ब्याज

$\mathsf{AXIS}\;\mathsf{BANK}\;\mathsf{LTD}\;$ | अचल सम्पित्त के विक्रय हेतु $\mathfrak{s}-$ नीलामी की सूचन

रेटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4 / 5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 226010 कारपोरेट ऑफिस : तृतीय तल, ब्लॉक— बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई— 400825 रजिस्टर्ड ऑफिस : त्रिशूल, तृतीय तल, समराधेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद= 380006

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभृति का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल संपहितयों के विक्रय हेत् ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकत अधिकारी दवारा लिया गया है, को "जैसा है जहाँ है" और "जो कुछ भी है के आधार पर" दिनांक 04.02.2022 को बेचा जाएगा। मै0 बेनारा मेट्राब लि0, श्रीमती संगीता बेनारा पत्नी श्री संजय बेनारा, श्री अभय बेनारा पुत्र श्री मदन लाल जैन, श्री मदन लाल जैन पुत्र श्री मिश्री लाल जैन, श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन पत्नी श्री मदन लाल जैन, श्रीमती प्रेम लता जैन पत्नी श्री मदन लाल जैन, श्रीमती राजश्री बेनारा पत्नी श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती कविता बेनारा पत्नी श्री अभय बेनारा से प्रतिभूत लेनदार की रूपये 2,41,83,933.00 देय ब्याज व लागत दिनांक 31.12.2021 की बकाया राशि की वसूली हेतु ऋण खाता सं0 912030037374407, मे देय है।

अरिक्षित मूल्य (रू० में) बैंक की आनुकारी में अग्रिम जमा धनराशि बौली बड़ोत्तरी जमा करने के अंतिम तिथि, समय जानकारी में अग्रिम जमा धनराशि भार(धिंद कोई) धनराशि एवं स्थान रू 27,50,000.00(आ) मू) रू 10,000.00 02 फरवरी, 2022 साथं 5:00 04 फरवरी, 2022, प्रातः 11:00 बजे से

कृपया आवश्यक जानकारी के लिये नीलामी हेतु निम्न विवरण :-

सार्वजनिक ई-नीलामी की तिथि, समय एवं स्थान

क्त 2,75,000.00 (अग्रिम बजे तक, ऐक्सिस बैंक लि0, रू दस जमा धनराशि) द्वारा (रिटेल एसेट्स सेंटर) प्रथम तल, हजार डिमाण्ड ड्राफ्ट / पोस्टल आर्डर ऐक्सिस बैंक लि0 जी-4/5, बी, सेक्टर 4 गीमती मात्र) लखनऊ / आगरा के पक्ष में देय

दोपहर 12:00 बजे के मध्य, साथ में 5 पोर्टल पर https://www.bankeauctions.com जी–4/5, बी, सेक्टर 4 गोमती ई—नीलामी मिबिदा प्रपन्न, जिसमे नगर विस्तार, लखनऊ–226010, ई—नीलामी बोली फार्म, घोषणा आहि, सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

क0सं0 -1 : सम्पत्ति का अनुसूची विवरण : सम्पत्ति स्थित पलैट नं. 312, चतुर्थ तल, ब्लॉक नं. जीपी 8 का भाग, सेक्टर 13. सिकन्दरा योजना, (आर. एन. बंगला टावर) आगरा, बिल्डअप एरियाः 91.97 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती राजश्री बेनारा के नाम। चौहद्दी:-पूरब- प्लैट नं. 311, पश्चिम- खुला, उत्तर- 1.8 मीटर चौड़ा कोरीडोर, दक्षिण- खुला, उक्त वर्णित सम्पत्ति मै0 बेनारा मेट्राब लि0 द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं में भी साम्यिक प्रतिभृति के रूप में बंधक है, विक्रय के नियम व शर्तों के लिए कृपया प्रतिभृत लेनदार की बेक्साइट https: \\www.axisbank.com/ aucation -retail पर एवं बैंक की स्वीकृत सेवा प्रदाता M/S C1 India Private Limited को अपने वेब पोर्टल https: \\www.bankeauctions पर दिये गये लिंक एवं श्री मिथलेश कुमार- + 91-7080804466 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। नीलामी बैंक की स्वीकृत सेवा प्रदाता M/S C1 India Private Limited द्वारा अपने वेब पीर्टल https: \www.bankeauctions पर ऑनलाइन आयोजित की जायेगी। किसी भी अन्य जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के श्री अनुपम श्रीवास्तव (मोबाइल नं0— 9335132656, 9897844113) से बैंक के कार्यालय समय प्रातः 9:30 बजे से सार्य 4:00 बजे के दौरान सम्पर्क कर सकते है। ऋणी को यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के तहत 15 दिन के लिए मानना चाहिए। दिनांकः 12.01.2022 (प्रा0 अधिकारी एक्सिस बैंक लि0)

कश्मीर घाटी के अधिकतर स्थानों चार महीने की बच्ची को बेचने के आरोप में 11 लोग गिरफ्तार

मुंबई, 11 जनवरी (भाषा)।

चार महीने की बच्ची का कथित रूप अधिकारियों ने बताया कि से अपहरण करने और उसे तिमलनाडु के एक सिविल इंजीनियर को चार लाख 80 हजार रुपए में बेचने के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी और कहा कि मुंबई पुलिस के दो दलों ने तमिलनाड़ के कोयंबटूर से बच्ची को बचाया।

अधिकारी ने बताया कि अनवरी अब्दुल शेख नामक 50 वर्षीय महिला ने वीपी रोड पलिस को बताया था कि इब्राहिम शेख नामक व्यक्ति ने तीन जनवरी को एक बच्ची का अपहरण किया था जिसके बाद जांच शुरू हुई और नवजात के अपहरण तथा तस्करी का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा, 'हमने मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर पहले इब्राहिम अल्ताफ शेख (32) को गिरफ्तार किया और फिर उससे

पूछताछ के आधार पर मुंबई के सायन, धारावी, मलाड, जोगेश्वरी, नागपाड़ा में तथा कल्याण और ठाणे के इलाकों में छापेमारी की। इसके बाद दो महिलाओं और चार पुरुषों को और गिरफ्तार किया गया।' अधिकारी ने कहा, 'उन्होंने हमें बताया कि बच्ची को तमिलनाड में एक व्यक्ति को 4.8 लाख रुपए में बेचा गया है। वहां दो दलों को भेजा गया और चार दिन तक तीन जिलों में तलाशी अभियान चलाया गया।

पूर्व विधायक खन्ना समेत पंजाब के कई नेता भाजपा में शामिल जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 11 जनवरी।

पंजाब चुनावों से पहले वहां के नेताओं के भाजपा में शामिल होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता गुरदीप सिंह गोशा और अमृतसर के पर्व पार्षद धर्मवीर सरीन सहित पंजाब के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा।

सीआईएन - L25111DL1995PLC073719 पंजीकरण कार्यालय : जी-1, विकास हाउस, 34/1. पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली -110026, फोन नंबर: 011-40450110 | ईमेल - info@vikaslifecarelimited.com 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये अनंकेक्षित समेकित तथा स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. लाखों में समाप्त वर्ष समाप्त तीन महीने समाप्त छः महीने समाप्त वर्ष समाप्त छः महीने 31 मार्च 21 अनेकेक्षित अंकेक्षित अनंकेक्षित अकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षि अनंकेक्षित 7,176.59 5,075.92 11,411,11 8,416.51 11,411.1 1,318.63 21,121.13 8,416.51 7,176.59 1,318.63 21,121.13 5,075.92 कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) 381.67 299.91 -149.98387.73 306.33 10.27 738.60 62.61 -149.9810.27 726.12 62.61 कर से बाद शुद्ध -350.15577.77 45.79 -350.15282.05 249.91 6.62 565.29 45.79 288.11 256.33 6.62 लाभ/(हानि) 1,314.70 -1,418.651,645.33 1,853.01 1,314.70 660.84 852.99 -1,419.761,657.74 -1,853.01654.80 846.62 व्यापक आय 6,634.95 9,996.67 9,288.94 6,634.95 9,996.67 6,634.94 6,634.95 9,996.67 9,288.94 6,634.95 9,996.67 6,634.95 (सम मुल्य रु. 1 प्रति) रु. 1 प्रति का 0.03 0.03 -0.21 0.06 -0.28-0.050.03 0.03 -0.210.06 -0.28-0.05-0.210.03 0.03 0.03 0.06 -0.28 -0.05 0.03 -0.210.06 -0.28-0.05

विकास लाइफकेयर लिमिटेड

(पर्व में विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित इंड ए एस वित्तीय परिणामों की टिप्पणी: . उपरोक्त वित्तीय परिणामों को भारतीय लेखा मानक (''इंड ए एस''), कम्पनी अधिनियम, 2013 (''कम्पनी अधिनियम'') के लागू होने वाले प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है यह इंड ए एस कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली के नियम 3 तथा उसके बाद जारी की गई संशोधनों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट हैं।

2. उक्त तिमाही तथा नौ महीने के परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 10 जनवरी, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक लेखा–परीक्षकों ने 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के परिणामों की सीमित समीक्षा की है। . कम्पनी ने अपनी बैंक खाता में हाल ही में सम्पन्न राइट ईश्यू की रकम प्राप्त की है जिसमें योग्य शेयरधारकों को राइट्स आधार पर रु. 1/- प्रति (रु. 0.40 अंशतः प्रदत्त) के अंशतः प्रदत्त 17, 69,32, 132 इक्विटी शेयर्स आवंटित किये गये हैं। ये पूर्णतः प्रदत्त

शेयर्स बीएसई (स्क्रिप कोड: 890160) तथा एनएसई (सिम्बॉल:VLIFEPP) दोनों में सूचीबद्ध हैं जिसमें सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021 को ट्रेडिंग शुरू हुई।

4. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व वर्ष/अवधि के आंकड़े पुनर्समृहीकृत/पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 10.01.2022

Regulations") ("Open Offer").

the closure of this Offer.

Place: Mumbai, Maharashtra

Date: January 11, 2022

विकास लाइफकेयर लिमिटेड के लिये विवेक गर्ग प्रबंध निदेशक DIN: 00255443

Pre- Offer Advertisement under Regulation 18(7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended, and Corrigendum to the Detailed Public Statement for the

ONESOURCE IDEAS VENTURE LIMITED

Registered Office: J.J. Manor, 2nd Floor, 146, Rukmani Lakshmipathy Road, Egmore, Chennai - 600 008, Tamil Nadu, India; Tel. No.: +91 44 4213 4343; Email: cs@osiyl.com; Website: www.osiyl.com;

Open Offer by Mr. Vibhu Maurya ("Acquirer") to acquire upto 8,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each for cash at a price of Rs. 16/- (Rupees Sixteen only) per Equity Share plus an Interest component ^ of ₹ 7.54 (Rupees Seven & paise fifty four only) per Equity Share aggregating upto Rs. 1.88.32.000/- (Rupees One Crore Eighty Eight Lacs Thirty Two Thousand only), to the Public shareholders of Onesource Ideas Venture Limited ("Target Company") in accordance with the extant Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST)

This Advertisement in accordance with Regulation 18(7) of the Takeover Regulations and Corrigendum to the Detailed Public Statement ("DPS") and is to be read together with: (a) the Public Announcement dated October 13, 2021 ("PA"); (b) the Detailed Public Statement published on October 22, 2021 in Financial Express (English daily) all editions, Jansatta (Hindi daily) all editions, Mumbai Lakshdeep (Marathi daily) Mumbai edition and Makkal Kural (Regional language newspaper (Tamil, Chennai) where the Registered Office of the Target Company is situated) ("DPS") (d) the Letter of Offer dated January 01, 2022 ("LOF") is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited, on behalf of the Acquirer in respect of the Open Offer ("Pre Offer Advertisement cum Corrigendum").

The shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

Offer Price is ₹ 16.00 /- (Rupees Sixteen Only) per Equity Share plus an Interest component ^ of ₹ 7.54 (Rupees Seven & paise fifty four only) per Equity Share ("Offer Price") payable in cash pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (as amended) (SEBI (SAST) Regulations). There has been no upward revision in the Offer Price. ^ The interest amount shall however be payable to only those public shareholders who were holding shares in the Target Company when the previous open offer obligation had been triggered by Seller 2 (on May 27, 2017) and continue to remain as public shareholders till date.

Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company has recommended that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI (SAST) Regulations. Further, IDC is of the view that the Offer Price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI (SAST) Regulations. The IDC's recommendation was published on January 11, 2022 in the same newspapers in which the DPS was published.

The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations. The dispatch of the LOF to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date (being Thursday, December 30, 2021) has been completed on Tuesday,

January 04, 2022 (through registered post/speed post) and Thursday, January 06, 2022. (through electronic mode). Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer" at page 31 of the LOF in relation to inter alia the procedure for tendering their Equity

Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

A copy of the LOF (which includes the Form of Acceptance) will also be available on the websites of SEBI (https://www.sebi.gov.in), the Target Company (www.osivl.com), the Registrar to the Offer (www.purvashare.com), the Manager (www.saffronadvisor.com), BSE (www.bseindia.com) from which the Public Shareholders can download / print the same.

Instructions for Public Shareholders:

In case the Equity Shares are held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned on page 32 and page 33 of the LOF along with Form SH-4.

In case the Equity Shares are held in dematerialised form: Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified on page 32 of the LOF. The Public Shareholders holding Shares in Demat mode are not required to fill any Form of Acceptance. In case of non-receipt of the LOF, the Public Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating

name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in the LOF. Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform by the Selling Broker which will be made available by BSE before the closure of the Tendering Period. The interest component of Rs. 7.54 which shall be payable to only those public shareholders who were holding shares in the Target Company on May 27, 2017 and continue to remain as public shareholders

till date as stated in the Letter of Offer dated January 01, 2022 and who have validly tendered their shares in this Open Offer will be settled separately by Registrar to the Offer i.e Purva Shareregistry (India) Private Limited.

Status of Statutory and Other Approvals: As of the date of the LOF, to the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory or other approvals required to complete the Offer.

In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on October 29, 2021. All observations received from SEBI by way of their letter no. SEBI/HO/CFD/

DCR2/P/OW/2021/39695/1 dated December 28, 2021 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations have been incorporated in the LOF. 11. Schedule of Activities:

Activity Original Day and Date Revised Day and Date Wednesday, October 13, 2021 Wednesday, October 13, 2021 Issuance of Public Announcement (PA) Publication of DPS in the newspapers Friday, October 22, 2021 Friday, October 22, 2021 Filing of the draft letter of offer with SEBI Friday, October 29, 2021 Friday, October 29, 2021 Last date for a competitive bid Tuesday, November 16, 2021 Tuesday, November 16, 2021 Last date for SEBI observations on draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or Wednesday, November 24, 2021 Wednesday, December 28, 2021 additional information from the Manager to the Offer) Thursday, December 30, 2021 Friday, November 26, 2021 Identified Date* Letter of Offer to be dispatched to Eligible Shareholders Friday, December 03, 2021 Thursday, January 06, 2022 Wednesday, January 12, 2022 Last date for revising the Offer price/ number of shares Thursday, December 09, 2021 Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its Wednesday, December 08, 2021 Tuesday, January 11, 2022 Date of publication of Offer Opening Public Announcement Thursday, December 09, 2021 Wednesday, January 12, 2022 Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date) Friday, December 10, 2021 Thursday, January 13, 2022 Thursday, December 23, 2021 Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing Date) Thursday, January 27, 2022 Last Date for completion of all requirements including payment of consideration Thursday, January 06, 2022 Thursday, February 10, 2022

Last date for issue of post-offer advertisement Thursday, January 13, 2022 Thursday, February 17, 2022 * Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all the shareholders holding Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except the Acquirer, Sellers and Promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer any time before

Capitalised terms used but not defined in this Pre Offer Advertisement cum Corrigendum Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Public Announcement and/or DPS and/or LOF. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations. This Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued on behalf of the Acquirer by the Manager to the Offer



605, Sixth Floor, Centre Point, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059, India; Tel. No.: +91 22 4082 0906; Fax No.: +91 22 4082 0999; Email id: openoffers@saffronadvisor.com; Website: www.saffronadvisor.com; Investor grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com; SEBI Registration Number: INM 000011211; Validity: Permanent; Contact Person; Varsha Gandhi

Registrar to the Offer



PURVA SHAREREGISTRY (INDIA) LIMITED Unit No.9, Ground Floor, Shiv Shakti, Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India;

Tel. No.: +91 22 2301 2518 / 8261; Fax: Not Available Email id: support@purvashare.com; Website: www.purvashare.com

Investor Grievance: support@purvashare.com SEBI Registration Number: INR00001112; Validity: Permanent: Contact Person: Deepali Dhuri

www.readwhere.com

பொங்கல், தைப்பூசத்திற்கு இடைப்பட்ட 17ந் தேதி அரசு விடுமுறை

பொங்கல் மற்றும் தைப்பூசம் திருநாளுக்கு இடைப்பட்ட 17ந் தேதியன்று (திங்கட்கிழமை) தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி தமிழக அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது.

பொதுத்துறை இதுகுறித்து செயலாளர் டி.ஜெகந்நாதன் வெளியிட்ட அரசாணையில் கூறப்பட்டு இருப்பதாவது:

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா நோய்த் தொற்று பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ஜனவரி 7ந் தேதி முதல், இரவு நேர ஊரடங்கும், ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கும் நடைமுறையில் உள்ளது.

தேதி இந்த நிலையில் 14 $\dot{f b}$ (வெள்ளிக்கிழமை) பொங்கல் முன்னிட்டு பண்டகையை பணியாளர்கள் சொந்த சென்று பண்டிகையை ஊருக்குச் மகிழ்வுடன் ஏதுவாகவும்,

சென்னை, ஜன.12 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் நிலையிலும், தேதி தைப்பூசத் திருநாள் அன்று அரசு விடுமுறையானதாலும், இடைப்பட்ட நாளான 17ந் தேதியன்று (திங்கட்கிழமை) தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்களுக்கும் உள்ளர் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் என்று பணியாளர்கள் சங்கங்களிடம் கோரிக்கைகள் அரசுக்கு இருந்து வரப்பெற்றன.

கோரிக்கைகளை அந்த பரிசீலித்து கவனமுடன் தேதியன்று (திங்கட்கிழமை) தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் உள்ளூர் விடுமுறை அளித்தும், விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், தேதியை (சனிக்கிழமை) பணி நாளாக அறிவித்தும் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.

உள்ளூர் விடுமுறை, முறிச்சட்டத்தின் அறிவிக்கப்படவில்லை

அலுவல்களை . மேற்கொள்வதற்காக தமிழக**த்**தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள கருவூலங்கள் கருவூலங்கள், சார் குறிப்பிட்ட பணியாளர்களோடு செயல்படுவதற்கு தகுந்த ஏற்பாடுகளை அனைத்து மாவட்ட கலெக்டர்களும் செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. பொங்கலுக்காக அரசு விடுப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 15ந் தேதி, 16ந் தேதி (சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்) ஏற்கனவே நா**ட்**களாக அதனுடன் இணைந்துள்ளன. அடுத்ததாக, தைப்பூசத்தை தேதியும் முன்னிட்டு அரசு விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

இந்த 4 விடுமுறை நாட்களை தொடர்ச்சியாக அனுபவிக்க 17ந் தேதி இடையூறாக இருப்பதால், அந்தத் தேதியையும் அரசு விடுமுறை நாளாக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன்படி 5 தொடர்ச்சியான விடுமுறை நாட்களை ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவிக்க முடியும்.

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து முதலமைச்சர்களுடன் மோடி நாளை ஆலோசனை

புதுடெல்லி, ஜன.12 அதிகரித்து கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் மோடி நாளை ஆலோசனை நடத்துகிறார்.

தாக்கத்தால் மூன்றாவது நாட்டில் அலை கொரோனா உள்ளது. பரவல் வேகமெடுத்து வருகிறது. நாள் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை லட்சத்துக்கு மேற்பட்டோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்கள் எண்ணிக்கையும் மேல் தினமும் ஒரு லட்சத்துக்கு

அதனால் வருகிறது. கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த மாநிலங்கள் ஊரடங்கை பெரும்பாலான அறிவித்துள்ளன. மாநிலங்கள் கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தி உள்ளன.

முன்கள பணியாளர்கள், சுகாதார மற்றும் நோய்கள் கொண்ட 60 வயகை கடந்தவர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 15 வயது முதல் 18 வயது வரையிலான சிறுவர்களுக்கும் போடப்பட்டு வருகிறது

பிரதமர் மோடி கடந்த தேதி உயர்மட்ட கூட்டம் நடத்தினார். அளவில் மாவட்ட சுகாதார கட்டமைப்புகளை அதிகரிக்குமாறும், சிறுவர்களுக்கான தடுப்பூசி விரைவுபடுத்துமாறும் கேட்டுக்கொண்டார்.

தொடர்ச்சியாக, இதன் கட்டுப்படுத்துவது கொரோனாவை மாநில அனைத்து முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நாளை (வியாழக்கிழமை) ஆலோசனை நடத்துகிறார். காணொலி வாயிலாக இக்கூட்டம் நடக்கும் என்று தெரிகிறது.

16ந்தேதி ஊரடங்கு அன்று முன்பதிவு செய்த பயணிகளின் முழு தொகை திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும்

சென்னை, ஜன.12 அரசு பஸ்சில் பயணம் செய்ய வருகிற 16ந்தேதி அன்று முன்பதிவு செய்துள்ள பயணிகளுக்கு தொகையும் 2 நாளில் கிடைக்க வழி வகை செய்யப்பட்டுள்ளது என்று போக்குவரத்து துறை அறிவித்து

முதலமைச்சரின் உத்தரவின்பேரில், பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு, போக்கு வரத்துத் துறையின் சார்பில் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்க அனைத்து செய்யப்பட்டு ஏற்பாடுகளும் வருகிறது.

இந்தநிலையில், தற்போது, தமிழக அரசு வருகிற 16ந்தேதி அன்று முழு

டாஸ்மாக்' கடைகளில் முககவசம் அணிந்து வருபவர்களுக்கு மட்டுமே மதுபானம் விற்பனை

. சென்னை, ஜன.12– டாஸ்மாக் கடைகளில் முக்கவசம் அணிந்து வருபவர்களுக்கு மட்டுமே செய்ய மகுபானம் விற்பனை வேண்டும்.

மேலாண்மை டாஸ்மாக் இயக்குனர் அனைத்து முதுநிலை மேலாளர்கள், மண்டல மேலாளர்களுக்கு அனுப்பிய சுற்றறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது**:** டாஸ்மாக் கடைகளில் வாடிக்கையாளர்கள் கூட்டமாக நிற்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். நேரத்தில் பேருக்கு மேல் கடை முன்பு நிற்பதை அனுமதிக்கக்கூடாது. டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் கண்டிப்பாக முககவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும். முககவசம் அணிந்து வருபவர்களுக்கு மட்டுமே மதுபானம் விற்க வேண்டும். உள்ளிட்ட கொரோனா நெறிமுறைகள் வழிகாட்டு பின்பற்றப்படுவதை கண்டப்பாக உறுதிசெய்ய வேண்டும். அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.

போக்குவரத்து துறை அறிவிப்பு 300

அறிவித்துள்ளதால் ஊரடங்கினை வருகிற பொங்கலுக்கு பின்பு 16ந்தேதியிலிருந்து 18ந்தேதி வரை இயக்குவதாக இருந்த சிறப்புப் பஸ்கள் இயக்கம் வருகிற 17ந்தேதியிலிருந்து வருகிற 19ந்தேதி வரை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

வருகிற 16ந்தேதி அன்று முன்பதிவு செய்துள்ள பயணிகளுக்கு தொகையும் திரும்ப 2 நாட்களில் கிடைப்பதற்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் வருகிற 16ந்தேதி அன்று பயணம் செய்வதை தவிர்த்து மற்ற நாட்களில் முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்யலாம்.

பொங்கலுக்கு வருகிற பிறகு 17ந்தேதியிலிருந்து 19ந்தேதிவரை 2 ஆயிரத்து 100 பஸ்கள் வீதம் 6 ஆயிரத்து

இயக்கப்படுகிறது. பல்வேறு இதுதவிர இடங்களில் சென்னைக்கு இருந்து பஸ்களை பொருத்தவரையில்17ந்தேதி 2 ஆயிரத்து 30 பஸ்களும், 18ந்தேதி 1,358, 19ந் தேதி 409 ஆக 3 ஆயிரத்து இயக்கப்படுகிறது. 797 பஸ்கள் தவிர்**த்**து இடங்களுக்கு 17ந்தேதி 3 ஆயிரத்து 625, 18ந்தேதி 1,856,19ந்தேதி 1,131 இயக்கப்படுகிறது. ஆக மொத்தம் 10 ஆயிரத்து 409 சிறப்பு பஸ்களும், 6 ஆயிரத்து 300 தினசரி இயக்கப்படும் பஸ்கள் உட்பட 16 ஆயிரத்து 709 பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது.

போக்குவரத்து துறை முதன்மைச்செயலாளர் கே.கோபால் விடுத்துள்ள டாக்டர் அறிக்கையில் கூறி உள்ளார்.



முதலமைச்சா் மு.க.ஸ்டாலினை, ஹலோ எப்எம் தலைமை செயலாக்க அலுவலா் எஸ். சுரேஷ் சந்தித்து, முதலமைச்சருக்கு ஹலோ எப்எம். நேயா்களால் தோந்தெடுக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்ட "தமிழகத்தின் மிகச் சிறந்த அரசியல் ஆளுமைக்கான விருது – கிரீடம் 2021'' விருதினை வழங்கினார். ஹலோ எப்எம் ஆசிரியர் குழு மேலாளர் அ.ஜெ. ராஜசேகர், நிகழ்ச்சி தலைமை பொறுப்பாளர் பி.குழுதா மற்றும் நிர்வாகிகள் உள்ளனர்.

KVB Karur Vysya Bank

மேற்கு மாம்பலம் கிளை: பேரின்பவிலாஸ் டவர் 156/88, ஏரிக்கரை ரோடு, மேற்கு மாம்பலம் சென்னை-600 033. Ph: 044-24740347 & Mob: 8939601858

தங்க நகைகள் ஏல அறிவிப்பு

எங்கள் வங்கிபில் கடன் பெற்றுள்ள கழ்க்கண்ட நபர், தவணை கடந்து நெடு நாட்கள் ஆகியும் கடக் தொகையை செலுத்தி நகைகளை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. எனவே இந்த விளம்பரம் கண்ட மீடி வருக்கும் மூலம் அனுப்பியும் நகைகளை மீட்கவில்லை. எனவே இந்த விளம்பரம் கண்டவுடன் அசல் வட்டியுடன் இதர செலவுகளையும் சேர்த்து வருகிற 27.01.2022 அன்று காலை 11.00 மணிக்குள் வங்கியில் செலுத்தி நகைகளை இரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தவறினால் கடலுக்கு சடாக வைக்கப்பட்டுள்ள நகைகளை கடக்கி பெற்றுக்கொள்ள கேண்டும். தவறினால் கடலுக்கு சடாக வைக்கப்பட்டுள்ள நகைகளை கடன் பெற்றவர்களின் செலவிலேயே 27.01.2022 அன்று நண்பகல் 12.00 மணியளவில் எங்கள் வங்கி அலுவலகத்தில் வைத்து கிளை மேலாளர் அவர்களைல் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் பனிரங்க ஒலம் வீடப்படும் அல்லது நிர்வாகத்தின் சௌகரியம் போல மறு ஏல அறிவிட்டி ஏதுமின்றி தேதியில் ஏலம் விடப்படும் என்று இதன் வாயிலாக அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கைகளை மாற்றவோ, ஒத்திப் போடவோ கிளை மேலானருக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். வாடிக்கையாளர்களை மாற்றவோ, ஒத்திப் போட்டவி திமுறை நிபந்தனைகளை வங்கியின் அறிவிப்பு மணையில் வாறிகதாரர்களுக்கும் பொருந்தும். ஒல்திபந்தனைகளை வங்கியின் அறிவிப்பு மணையில் காணைலாம். நிபந்தனைகள் யாவும் அந்த வாடிக்கையாளர்களின் வாரிசுதார **ஏல நிபந்தனைகளை வங்கியின் அறிவிப்பு பலகையில் காணலாம்**.

1858802000004031

கடன் பெற்றவர் பெயர் 🏻 நகை எடை கிராமில்

128.07

PUBLIC NOTICE

Under instructions of your client Mrs. Revathi Ramanujam Flat No.9, 2nd Floor, BBC Gest, Door No.27 (Old No.11) Thyagaraya Gramani Street, Thyagaraya Nagar, Chennai-600 017 we put the Public as it is hereby notified that Share Certificates in the name of Revathy S Varadan issued by Apollo Hospitals Enterprises td., Chennai in Folio No.7635 Share Certificate No. 357637 Distinctive Nos 7167363 to 7167562 total Shares 200 were Los on 03.01.2022 while travelling by Auto at North Usman Road Nagar, Chennai and the said certificates were not traceable despite her deligent search. If any one is in possession of the said certificates has/have may please handover the same to us ithin 10 days from the date of this notice. Suitable reward shall be given otherwise it shall be deemed that there is no such claim whatsoever and our client shall obtain duplicate share certificates from the concerned Authority. M/s. A.Ganesan, N.Velayudam G.Niveathitha (UK), Advocates

> Chennai-600 104 Mobile: 9600006284 Email: advanbuganesan@gmail.com பிற்சேர்க்கை IV

320, New Addl Law Chamber

High Court Buildings

(விதி 8 (1) பார்க்கவும்) உடைமை அறிவிப்பு (அசையா சொத்துக்காக)

அவ்வாரிருக்கையில்.

கீழே கையொப்பமிடப்பட்டுள்ள **இந்தியாபுல்ஸ் கமர்சியல் கிரெடிட் லிமிடெ** (CIN:L65922DL2005PLC136029) அங்கீகாரம் பெற்ற அதிகாரி . செக்யூரிடைசேஷன் அண்டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஸியவ் அசெட்ஸ் மற்றும் என்ஃபோர்ஸ்மென்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இண்டரெஸ்ட் ஆக்ட், சட்டம் 2002 கீழ் மற்றும் பிரிவு 13 (12) விதி 3, கீழ் செக்யூரிட்டி இண்டரெஸ்ட் என்ஃபோர்ஸ்மென்ட் விதி, 2002 உடன் வாசிக்கப்பட்டு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரங்களின் நடைமுறைப்படி 02.07.2021 தேதியிட்ட கோரிக்கை அறிவிப்பு வழங்கியுள்ளது. அந்த அறிவிப்பை பெற்ற தேதியிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள் உண்மையாக பணம் செலுத்தும் தேதி வரை கடன் ஆவணங்களின் விதிமுறைகளின்படி 26.06.2021-ம் தேதியின்படி அதற்கான வட்டியுடன் கடன் கணக்கு எண்: **HHLCHE00257721** கொண்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்ட **ரூ. 17,27,721.4 (ரூபாய் பதினேழு லட்சம்(கள்)**

இருபத்து ஏழாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தொன்று மற்றும் நாற்பது பைசா மட்டும்) தொகையினை கடனாளிகள் **சதீஷ்குமார் ஜே; வொர்க்ஃபோர்ஸ்** ஸ்டாஃபிங் பிரைவேட் லிமிடெட், 3வது தளம், எண் 14, மற்றும் 16 ராமன் தெரு, வடக்கு போக் சாலை, தி நகர், சென்னை, தமிழ்நாடு – 600017, கலைவாணி ஜே ; எண் 314/பி மலாங்கு சாலை, நூருல்பேட்டை வாணியம்பாடி, வேலூர், தமிழ்நாடு – 635751, வேணுகோபால் ஏ; 120டி சபரி ஃபிளாட்ஸ் 71 எஃப்எல்ஆர், கொத்தவால்சாவடி தெரு, மேற்கு **சைதாப்பேட்டை, சென்னை, தமிழ்நாடு – 600015,** செலுத்த வேண்டும்

கடனாளிகள் தொகையை திருப்பிச் செலுத்த தவறியதால் கடனாளி மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படும் அறிவிப்பு என்னவென்றால் செக்யூரிட்டி இண்டரெஸ்ட் (என்ஃபோர்ஸ்மென்ட்) விதிகள் 2002 சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின் பிரிவு 13(4) கீழ் விதி 8 உடன் கீழே கையொப்பமிட்டவருக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரங்களின் நடைமுறைப்படி 07.01.2022 அன்று கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள சொத்தின் **அடையாஎ உடைமையை** எடுத்துக் கொண்டுள்ளார் என்பதாகும்

கடன் பெற்றவரும், குறிப்பாக பொதுமக்களும் இந்தச் சொத்துடன் எந்த ஒப்பந்தமும் செய்யக் கூடாது என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது இந்தச் சொத்தை வாங்குபவர்கள் மற்றும் இந்தச் சொத்துடன் செய்யப்படும் ஏதாவது நடவடிக்கை, உண்மையாகப் பணம் செலுத்தும் தேதி வரை கடன் ஆவணங்களின் விதிமுறைகளின்படி 26.06.2021 தேதியின்படி அதற்கான வட்டியுடன் **ரூ. 17,27,721.4 (ரூபாய் பதினேழு லட்சம் (கள்)** இருபத்து ஏழாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தொன்று மற்றும் நாற்பது பைசா **மட்டும்) இந்தியாபுல்ஸ் கமர்சியல் கிரெடிட் லிமிடெட்**-க்குச் செலுக்க

எடுக்கப்பட்ட சொத்துக்களை மீட்டுப் பெற கிடைக்கும் காலத்தைப் பொறுத்தவரை சட்டத்தின் 13வது பகுதியின் துணைப் பிரிவின் (8 விதிமுறைகளை கடன் பெற்றவர் கவனிக்க வேண்டும்.

அசையாச் சொத்தின் விவரம்:

பிளாட் எண் டி 10 முதல் தளம், ஒரு பிளாக் ஆசிர்வாத் வீடுகள் – கிரிஸ்டல் பார்க் எண் 197/1 எண் 115 மாகானியம் கிராம சாலை, மாகானியம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் வட்டம், காஞ்சிபுரம் தமிழ்நாடு = 601301.

அங்கீகாரம் பெற்ற அதிகாரி தேதி: 07.01.2022 இந்தியாபுல்ஸ் கமர்சியல் கிரெடிட் லிமிடெட்

வேப்கோ இந்தியா லிமிடெட் CIN: L34103TN2004PLC054667

அலுவலகம்: பிளாட் எண 3 (SP) 3-வது மெயின் ரோடு, பத்தூர் இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், சென்னை - 600 058. Website: www.wabco-auto.com No.91 44 42242000, Fax No.91 44 4224200

அறிவிப்பு

2015ம் வருடத்திய செக்யூரிட்டீன் அண்டு எக்சேஞ்சு போர்டு ஆஃப் இந்தியா (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள் விதிகள், விதி 47 (1) (a)-ன்படி டிசம்பர் 31, 2021-ல் முடிவடைந்த காலாண்டுக்கான கம்பெனியின் தணிக்கை செய்யப்படாத கணக்கு . களை பரிசீலித்து ஒப்புதல் வழங்க கம்பெனியின் இயக்கு நர்கள<u>்</u> கூட்டம் ஜனவரி 27, 2022 வியாழக் கிழமை அன்று நடைபெறும் என்ற இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது

ZF குருப் - வேப்கோ இந்தியா லிமிடெட்டிற்கா முத்துகைஷ்மி .M

BEFORE THE HON'BLE VI O.P.No.269 OF 2020

-VS-Naveenkumar S. ...Respondent

Son of G.Sakkarai No .8, Cross Road, Police Lane, New Washermanpet, Chennai-600081

[Respondent - Husband] Please take Notice that in the above Divorce Petition O.P.No.269 above Divorce Petition O.P.No. 269
OF 2020 filed by the Petitioner
against you before the Hon'ble
VI Additional Family Court, at
Chennai, is posted for your
appearance on 7/ 2/ 2022. You
a.Ye hereby informed to be
present on 7/ 2/ 2022 at 10.30 A.M.
before the Hon'ble VI Additional Family Court, at Chennai either in person or through an advocate without fail, failing which the above matter will be decided in your

absence. Shylini. P, Wife of Naveenkumar. S [Petitioner-Party in Person]

BEFORE I ADDITIONAL CITY

l Mr.D. Audisesha Reddy Mr.D. Anilkumar Reddy Ms.D.Devasena Ms.D.Neena Reddy

Ms D Vaishnavi Ms.D.Varshini All residing at New No.8, 3rd Floor, Kannaiah Street, T.Nagar, Chennai-600017

. ..Plaintiffs [1] M/s.Gemini Res A Partnership Firm M/s.Gemini Residency having office at MIG 60, 7th Street, Eri Scheme, Mugappair, Chennai 600 032 [2] Mr. Ramasamy S/o. R.Shanmugam MIG 60, 7th Street, Eri Scheme, Mugappair, Chennai 600 032 [3] Mr. Mohammed Yusuf D/o.Late.Mohamed Mohideen

No.45, Jeevanandam Salai

K.K. Nagar, Chennai 600 078

M/s.Gemini Residency, A partnership firm Mr. Ramasamy Take notice that in the above suit which came up for hearing before the Hon'ble I Additional City Civil Court. Chennai on 03/12/2021 and

the Learned Judge was pleased to order paper publication to you, returnable by 03/01/2022.

Hence, please take notice of the same and file your objections if any on the said date when the matter is listed before the Hon'ble I Additional City Civil Court, Chennai on 01.02.2022 at 10.30 A.M. either in person or through counsel, failing which the matter will be heard and decided in your

K.V.BABU, Advocate

Pre- Offer Advertisement under Regulation 18(7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended, and Corrigendum to the Detailed Public Statement for the attention of the public shareholders of

Registered Office: J.J. Manor, 2nd Floor, 146, Rukmani Lakshmipathy Road, Egmore, Chennai - 600 008, Tamil Nadu, India; Tel. No.: +91 44 4213 4343; Email: cs@osivl.com; Website: www.osivl.com;

Open Offer by Mr. Vibhu Maurya ("Acquirer") to acquire upto 8,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each for cash at a price of Rs. 16/- (Rupees Sixteen only) per Equity Share plus an Interest component ^ of ₹ 7.54 (Rupees Seven & paise fifty four only) per Equity Share aggregating upto Rs. 1,88,32,000/- (Rupees One Crore Eighty Eight Lacs Thirty Two Thousand only), to the Public shareholders of Onesource Ideas Venture Limited ("Target Company") in accordance with the extant Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST)

This Advertisement in accordance with Regulation 18(7) of the Takeover Regulations and Corrigendum to the Detailed Public Statement ("DPS") and is to be read together with: (a) the Public Announcement dated October 13, 2021 ("PA"); (b) the Detailed Public Statement published on October 22, 2021 in Financial Express (English daily) all editions, Jansatta (Hindi daily) all editions, Mumbai Lakshdeep (Marathi daily) Mumbai edition and Makkai Kural (Regional language newspaper (Tamil, Chennai) where the Registered Office of the Target Company is situated) ("DPS") (d) the Letter of Offer dated January 01, 2022 ("LOF") is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited, on behalf of the Acquirer in respect of the Open Offer ("Pre Offer Advertisement cum Corrigendum"

The shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following: Offer Price is ₹ 16.00 /- (Rupees Sixteen Only) per Equity Share plus an Interest component of ₹ 7.54 (Rupees Seven & paise fifty four only) per Equity Share ("Offer Price") payable in cash pursuant to the Securities

and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (as amended) (SEBI (SAST) Regulations), There has been no upward revision in the Offer Price The interest amount shall however be payable to only those public shareholders who were holding shares in the Target Company when the previous open offer obligation had been triggered by Seller 2 (on May 27, 2017) and continue to remain as public shareholders till date.

Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company has recommended that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI (SAST) Regulations. Further, IDC is of the view that the Offer Price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI (SAST) Regulations. The IDC's recommendation was published on January 11, 2022 in the same newspapers in which the DPS was published.

The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations

The dispatch of the LOF to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date (being Thursday, December 30, 2021) has been completed on Tuesday January 04, 2022 (through registered post/speed post) and Thursday, January 06, 2022. (through electronic mode) Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer" at page 31 of the LOE in relation to inter alia the procedure for tendering their Fourity

Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

A copy of the LOF (which includes the Form of Acceptance) will also be available on the websites of SEBI (https://www.sebi.gov.in), the Target Company (www.osivi.com), the Registrar to the Offer

Instructions for Public Shareholders: In case the Equity Shares are held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the

relevant information and documents as mentioned on page 32 and page 33 of the LOF along with Form SH-4. In case the Equity Shares are held in dematerialised form: Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified on page 32 of the LOF. The Public Shareholders holding Shares

in Demat mode are not required to fill any Form of Acceptance. In case of non-receipt of the LOF, the Public Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in the LOF. Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform by the Selling Broker which will be made available by BSE before the closure of the Tendering Period.

The interest component of Rs. 7.54 which shall be payable to only those public shareholders who were holding shares in the Target Company on May 27, 2017 and continue to remain as public shareholders till date as stated in the Letter of Offer dated January 01, 2022 and who have validly tendered their shares in this Open Offer will be settled separately by Registrar to the Offer i.e Purva Shareregistry (India) Status of Statutory and Other Approvals: As of the date of the LOF, to the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory or other approvals required to complete the Offer.

In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on October 29, 2021. All observations received from SEBI by way of their letter no. SEBI/HO/CFD/DCR2/P/OW/2021/39695/1 dated December 28, 2021 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations have been incorporated in the LOF.

Activity	Original Day and Date	Revised Day and Date
Issuance of Public Announcement (PA)	Wednesday, October 13, 2021	Wednesday, October 13, 2021
Publication of DPS in the newspapers	Friday, October 22, 2021	Friday, October 22, 2021
Filing of the draft letter of offer with SEBI	Friday, October 29, 2021	Friday, October 29, 2021
Last date for a competitive bid	Tuesday, November 16, 2021	Tuesday, November 16, 2021
Last date for SEBI observations on draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Wednesday, November 24, 2021	Wednesday, December 28, 2021
Identified Date*	Friday, November 26, 2021	Thursday, December 30, 2021
Letter of Offer to be dispatched to Eligible Shareholders	Friday, December 03, 2021	Thursday, January 06, 2022
Last date for revising the Offer price/ number of shares	Thursday, December 09, 2021	Wednesday, January 12, 2022
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation	Wednesday, December 08, 2021	Tuesday,January 11, 2022
Date of publication of Offer Opening Public Announcement	Thursday, December 09, 2021	Wednesday, January 12, 2022
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Friday, December 10, 2021	Thursday, January 13, 2022
Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	Thursday, December 23, 2021	Thursday, January 27, 2022
Last Date for completion of all requirements including payment of consideration	Thursday, January 06, 2022	Thursday, February 10, 2022
Last date for issue of post-offer advertisement	Thursday, January 13, 2022	Thursday, February 17, 2022
Last date for issue of post-offer advertisement * Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders of the Target Company as on	n such date to whom the Letter of Offer would t	ne sent. It is clarified that all the shareholder

Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except the Acquirer, Sellers and Promoter and Promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer any time before

Capitalised terms used but not defined in this Pre Offer Advertisement cum Corrigendum Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Public Announcement and/or DPS and/or LOF. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations. This Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued on behalf of the Acquirer by the Manager to the Offer

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

605, Sixth Floor, Centre Point, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059, India; Tel. No.: +91 22 4082 0906; Fax No.: +91 22 4082 0999; Email id: openoffers@saffronadvisor.com; Website: www.saffronadvisor.com; Investor grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com;

SEBI Registration Number: INM 000011211; Validity: Permanent; Contact Person: Varsha Gandhi



PURVA SHAREREGISTRY (INDIA) LIMITED Unit No.9, Ground Floor, Shiv Shakti, Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai – 400011, Maharashtra, India; **Tel. No.:** +91 22 2301 2518 / 8261; Fax: Not Available Email id: support@purvashare.com: Website: www.purvashare.com

Investor Grievance: support@purvashare.com SEBI Registration Number: INR00001112; Validity: Permanent; Contact Person: Deepali Dhuri

Place: Mumbai, Maharashtra **Date:** January 11, 2022

सार्वजनिक संपत्ती खासगी उद्योजकांना विकून देशाचे नुकसान - नाना पटोले

पुणे, दि.११ (प्रतिनिधी) यातून सार्वभौम देशाचे : देशाची सार्वजनिक संपत्ती खासगी उद्योजकांना विकून केंद्र सरकार देशाचे नुकसान करत आहे. पूर्वी देश धोक्यात आहे म्हणत, आता मोदी धोक्यात आहेत असे म्हणू लागले आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. राजीव गांधी रमारक समि तीच्या वतीने भारतात मोदी सरकारची लोकशाही

की खासगीशाही? या विषयावर फेसबुक लाईव्हद्वारे समारोपाचे ६ वे चर्चासत्र झाले. पटोले अध्यक्षरथानी होते. जयंतराव माईणकर, सोहनकुमार बोस यात सहभागी झाले होते. समितीचे अध्यक्ष गोपाळ तिवारी यांनी स्वागत केले. पटोले म्हणाले, खासगीकरणामुळे सर्वसामान्यांचे अधिकार संपुष्टात येतील. आज मोदी सरकार बँकेत पैसे ठेवायला आणि बँकेतून पैसे काढायलाही पैसे मागत आहे. रेल्वे, विमानतळ, विमानसेवा, बँका, बंदरे, एलआयसी या सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण झाले.

कोरोनाचा संसर्ग वाढल्याने सिंहगड पर्यटकांना बंद

पुणे, दि.११ (प्रतिनिधी) : कोरोनाचा संसर्ग पुन्हा अचानक वाढल्याने राज्य सरकारने अनेक निर्बंध केले आहेत. पर्यटन ठिकाणी गर्दी होत असल्याने पर्यटन स्थळ, गड किल्ले पर्यटकांसाठी बंदी घातली आहे. त्या धोरणानुसार सिंहगड देखील पर्यटकांच्यासाठी बंद केल्याची माहिती वन विभागाने दिलीण शहर व जिल्ह्यातील कोरोनाची रञ्गसंख्या वाढली आहे. त्याचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून राज्य सरकारने काही पावले उचलली आहेत. नागरिक, पर्यटकांच्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही निबंध सुद्धा लादले आहेत. शाळा, कॉलेज बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.

स्वातंत्र्य संपुष्टात येत आहे. नॅशनल रेल्वे मजदूर संघाचे कार्याध्यक्ष बोस म्हणाले, रेल्वेच्या विविध विभागांचे खासगीकरण सुरू आहे. रेल्वे देशाच्या कानाकोपऱ्यात सुविधा देते, उद्या खासगीवाले ग्रामीण किंवा दुर्गम भागत सेवा देणार का? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे.

जाहिर सूचना

येथे सर्वसामान्यांना सूचना देण्यात येत आहे की माझ्या अशिलांनी नामे सौ. अंजली अशोक पटवा आणि श्री.

अशोक कुमार पटवा आहेत, त्यांनी श्री. प्रकाश हुकमीचंद गाबा यांच्याकडून नियुक्त केलेल्या मुखत्यार श्रीमती माला बळीराम मुत्रेजा यांनी दि.०८ डिसेंबर २०२१ रोजी अनुक्रमांक बीआरएल-६-१९०१४-२०२१ अंतर्गत

सब रजिस्ट्रार बॉरिवली शहर कार्यालयात नोंदणी केलेल्या करारनाम्याद्वारे यांच्याकडून सदनिका खरेदी केली

आहे. मालमत्तेचा तपशील फ्लॅट क्र.९०१-ए, ९वा मजला, क्षेत्रफळ ६९५ चौ.फु.बिल्ट अप क्षेत्र, इमारत

क्र.२ ओबेरॉय गार्डन्स म्हणून ज्ञात आणि सोसायटी ओबेरॉय गार्डन्स को-ऑप.हौ.सो.लि.म्हणून ज्ञात, सीटीएस क्र.७९३ भाग, सन्हें क्र.३१ भाग, सीटीएस क्र.८१८ भाग, गाव - पोईसर, तालुका - बोरिवली, कांदिवली (पूर्व), मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई-४००१०१ येथील

जमिनचा सर्व भाग व खंड. सोसायटी नोंदणी क्र.बीओएम/डब्ल्यूआर/एचएसजी/टीसी/११९६८-२००३

दि. ०४-०४-२००३. सदर मालमत्ता श्री. राजेश रोचीराम सावलानी यांच्या नावावर होती व त्यावरील मालमत्ता

वाटप करण्यात आली होती. दि.२८/०७/१९९५ रोजी मे.ओबेरॉय असोसिएट्स यांनी श्री. राजेश रोचीराम

सावलानी यांच्या नावाने वाटप पत्र जारी केले. दि.१२/०३/१९९९ रोजी श्री. राजेश रोचीराम सावलानी एक

भाग आणि श्री.अशोक एच. गाबा आणि निर्मला अशोक गाबा दुसरा भाग यांच्या दरम्यान झालेला करार;

(विशेष चिकट रु. ००६१६१०/-) दिनांक २२/०२/२००६ रोजी श्री. अशोक एच. गाबा आणि श्रीमती

. निर्मला अशोक गाबा यांनी खरेदीदार/पुष्टी करणारे पक्ष एक भाग म्हणून केले; बोरिवली-६ येथील उपनिबंधक

कार्यालयात रीतसर शिक्का मारून नोंदणी केली आहे, ज्यावर दिनोंक २२/०२/२००६ रोजी नोंदणी क्र.

बीआरएल-६-१२७०, २००६ अंतर्गत नोंदणीकृत पुष्टीकरण खत केले. (कराराकरिता दिनांक १२.०३.१९९९), दिनांक ०७/०३/२००६ रोजीचे नोंदणीकृत दुरुस्ती करार श्री. अशोक एच. गाबा आणि

श्रीमती निर्मला अशोक गाबा यांनी खरेदीदार/पुष्टी करणारा पक्ष एक भाग म्हणून केले; बोरिवली-६ येथील

उपनिबंधक कार्यालयात रीतसर शिक्का मारून नोंदणी केली आहे, ज्यावर दिनांक ०७.०३.२००६ रोजी नोंदणी

क्र.बीडीआर-१२-०१६४५-२००६ अंतर्गत केला. श्री.अशोक एच. गाबा यांची दि.२५/०६/२००६

रोजी निधन झाले, त्यांच्या पश्चात १) निर्मला अशोक गाबा (पत्नी), २) श्रीमती मोनिका अशोक गाबा (मुलगी), ३) निशा अशोक गाबा (मुलगी) हे त्यांचे एकमेव कायदेशीर वारस आहेत. दि.१६.०२.२०२१

मुखत्यार श्री. बळीराम गंगाराम मुत्रेजा यांच्यामार्फत रिलीझर्स म्हणून एक भाग आणि निर्मला अशोक गांबा

गंनी नियुक्त केलेले मुखत्यार श्री. बळीराम गंगाराम मुत्रेजा यांच्यामार्फत केलेले रिलीझी म्हणून इतर भाग;

बोरिवली-५ येथील उपनिबंधक कार्यालयात रीतसर मुद्रांकित आणि नोंदणीकृत, नोंदणी क्र. बीआरएल-५-२७६७-२०२१ दिनांक १६/०२/२०२१ अंतर्गत केला. निर्मला अशोक गाबा यांच्यात दिनांक १६/०२/

. २०२१ रोजी नोंदणीकृत बक्षिस पत्र तयार करण्यात आले आहे,एका भागाचे दाता म्हणून नियुक्त मुखत्यार श्री

बळीराम गंगाराम मुत्रेजा आणि श्री. प्रकाश हुकमीचंद गाबा यांनी नियुक्त केलेल्या मुखत्यार श्रीमती माला

बळीराम मुत्रेजा याँच्यामार्फत डोनी म्हणून नियुक्त केले आहे इतर भाँग; बोरिवली-५ येथील उपनिबंधक

कार्यालयात रीतसर मुद्रांकित आणि नोंदणीकृत, नोंदणी क्र. बीआरएल-५-२७६८, २०२१ दिनांक १६/ ०२/२०२१. फ्लॅट क्रमांक ९०१-ए चे शेअर सर्टिफिकेट क्रमांक २८६ आणि १४५६ ते १४६० पर्यंतचे

मालमत्ता २

येथे सर्वसामान्यांना सूचना देण्यात येत आहे की माझ्या अशिलांनी नामे सौ. अंजली अशोक पटवा आणि श्री.

अशोक कुमार पटवा आहेत, त्यांनी श्री. प्रकाश हुकमीचंद गाबा यांच्याकडून नियुक्त केलेल्या मुखत्यार श्रीमती

माला बळीराम मुत्रेजा यांनी दि.०८ डिसेंबर २०२९ रोजी अनुक्रमांक बीआरएल-६-१९०१५-२०२१ अंतर्गत सब रजिस्टार बोरिवली शहर कार्यालयात नोंदणी केलेल्या करारनाम्याद्वारे यांच्याकडून सदनिका खरेदी केली

आहे. मालमत्तेचा तपशील फ्लॅट क्र.९०१-बी, ९वा मजला, क्षेत्रफळ ६०० चौ.फु.बिल्ट अप क्षेत्र, इमारत

क्र.२ ओबरॉय गार्डन्स म्हणून ज्ञात आणि सोसायटी ओबरॉय गार्डन्स को-ऑप.ही.सो.लि.म्हणून ज्ञात, सीटीएस क्र.७९३ भाग, सर्व्हे क्र.३१ भाग, सीटीएस क्र.८१८ भाग, गाव - पोईसर, तालुका - बोरिवली,

कांदिवली (पूर्व), मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई-४००१०१ येथील

जिमनचा सर्व भाग व खंड. सोसायटी नोंदणी क्र.बीओएम/डब्ल्यूआर/एचएसजी/टीसी/११९६८-२००३ दि. ०४-०४-२००३. सदर मालमत्ता श्री. राजेश रोचीराम सावलानी यांच्या नावावर होती व त्यावरील मालमत्ता

वाटप करण्यात आली होती. दि.२८/०७/१९९५ रोजी मे.ओबेरॉय असोसिएट्स यांनी श्री. राजेश रोचीराम

सावलानी यांच्या नावाने वाटप पत्र जारी केले. दि.१२/०३/१९९९ रोजी श्री. राजेश रोचीराम सावलानी एक भाग आणि श्री.अशोक एच. गाबा आणि निर्मला अशोक गाबा दुसरा भाग यांच्या दरम्यान झालेला करार;

(विशेष चिकट रु. ००६१६१०/-) दिनांक २२/०२/२००६ रोजी श्री. अशोक एच. गाबा आणि श्रीमती

. निर्मला अशोक गाबा यांनी खरेदीदार/पुष्टी करणारे पक्ष एक भाग म्हणून केले; बोरिवली-६ येथील उपनिबंधक

कार्यालयात रीतसर शिक्का मारून नोंदणी केली आहे, ज्यावर दिनांक २२/०२/२००६ रोजी नोंदणी क्र.

बीआरएल-६-१२६९-२००६ अंतर्गत नोंदणीकृत पुष्टीकरण खत केले. (कराराकरिता दिनांक

१२.०३.१९९९), दिनांक ०७/०३/२००६ रोजीचे नोंदर्णोकृत दुरुस्ती करार श्री. अशोक एच. गाबा आणि

श्रीमती निर्मला अशोक गाबा यांनी खरेदीदार/पुष्टी करणारा पक्ष एक भाग म्हणून केले; बोरिवली-६ येथील

उपनिबंधक कार्यालयात रीतसर शिक्का मारून नोंदणी केली आहे, ज्यावर दिनांक ०७.०३.२००६ रोजी नोंदणी

क्र.बीडीआर-१२-०१६४६-२००६ अंतर्गत केला. श्री.अशोक एच. गाबा यांची दि.२५/०६/२००६

रोजी निधन झाले. त्यांच्या पश्चात १) निर्मला अशोक गाबा (पत्नी). २) श्रीमती मोनिका अशोक गाबा

(मुलगी), ३) निशा अशोक गाबा (मुलगी) हे त्यांचे एकमेव कायदेशीर वारस आहेत. दि.१६.०२.२०२१

रोजीचे नोंदणीकृत रिलीज करार कु. मोनिका अशोक गाबा आणि कु. निशा अशोक गाबा यांचे नियुक्त

मुखत्यार श्री. बळीराम गंगाराम मुत्रेंजा यांच्यामार्फत रिलीझर्स म्हणून एक भाग आणि निर्मला अशोक गांबा

. अंनी नियुक्त केलेले मुखत्यार थ्री. बळीराम गंगाराम मुत्रेजा यांच्यामार्फत केलेले रिलीझी म्हणून इतर भाग; बोरिवली-५ येथील उपनिबंधक कार्यालयात रीतसर मुद्रांकित आणि नोंदणीकृत, नोंदणी क्र. बीआरएल-५-

२७६७-२०२१ दिनांक १६.०२.२०२१ अंतर्गत केला. निर्मला अशोक गाबा यांच्यात दिनांक १६.०२.२०२१

रोजी नोंदणीकृत बक्षिस पत्र तयार करण्यात आले आहे,एका भागाचे दाता म्हणून नियुक्त मुखत्यार श्री बळीराम

ांगाराम मुत्रेजा आणि श्री. प्रकाश हकमीचंद गाबा यांनी नियुक्त केलेल्या मुखत्यार श्रीमती माला बळीराम

मुत्रेजा यांच्यामार्फत डोनी म्हणून नियुक्त केले आहे इतर भाग; बोरिवली-५ येथील उपनिबंधक कार्यालयात

रीतसर मद्रांकित आणि नोंदणीकत, नोंदणी क्र. बीआरएल-५-२७६८-२०२१ दिनांक १६.०२.२०२१

फ्लॅट क्रमांक ९०१-ए चे शेअर सर्टिफिकेट क्रमांक २८६ आणि १४५६ ते १४६० पर्यंतचे शेअर्स निर्मला

वरील संदर्भित मालमत्तेवर किंवा तिच्या काही भागावर विक्री, देवाणघेवाण, गहाण, शुल्क, भेटवस्तू, देखभाल

अंतर्गत शीर्षकाचे हस्तांतरण किंवा फायदेशीर व्याज, कोणतेही बक्षिसपत्र, मृत्युपत्र, गहाण या मार्गाने दस्तऐवज

किंवा कोणतीही व्यक्ती आढळल्यास किंवा मालमत्तेच्या शीर्षकाचा दावा करण्यासाठी वरील मालमत्तेच्या

संदर्भात कोणत्याही प्रकारचा दावा, कृपया ७ दिवसांच्या आत ही सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून आक्षेप

(ॲड. आदित्य एच. गाडे)

४०१, गजानन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ग्लोबल बिझनेस सेंटर,

सिडको बस स्टॉप जवळ, ठाणे पश्चिम - ४०० ६०१.

उच्च न्यायालय, मुंबई

ए. जी. असोसिएटस.

शेअर्स निर्मला अशोक गाबा यांच्या नावावर आहेत.

जाहिर नोटीस

तमाम लोकांस या जाहिर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की, माझे अशिल श्री. राजेश वाशदेव चोईथरामाणी व श्री. गिरिश वाशदेव चोईथरामाणी, रा.–७०२,७०३ प्रियदर्शनी अपार्टमेंट, गोल मैदान, उल्हासनगर-१ यांची मौजे उल्हासनगर कॅम्प नं. १ येथील सी.टी.एस. नं. ८१३३, बॅ.नं. २९४, ब्लॉक नं. ए–४९ यावरील अमीर अपार्टमेंट मधील सदनिका क्र. १०३, पहिला मजला, क्षेत्र ५५४ चौ.फूट. बांधीव, या मिळकतीचे. उल्हासनगर – १ येथील कार्यालयात नोंदणी केलेले मुळ करारनामा दस्त क्र. २५६२ / १९९८ दि. १०/०८/१९९८ व त्याची मुळ नोंदणी पावती त्यांचेकडुन गहाळ झालेली आहे. तरी सदरचे मुळ करारनामा दस्त व त्यांची मुळ नोंदणी पावती कोणालाही सापडल्यास त्याचा गैरवापर न करता तसेच कोणाचाही कसलाही सदर मिळकतीवर हक्क, हितसंबंध असल्यास खालील नमुद पत्यावर सदर जाहिर नोटीस प्रसिध्द केल्यापासून ७ दिवसांत लेखी जबाब नोंदविणे व दस्त सापडल्यास तो आणून देणे जर सदरच्या मुदतीत सदर दस्त किंवा त्याबाबत काही माहिती न मिळाल्यास नंतर आलेल्या हरकतीचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

५, शकुंतला निवास सो. पाटील पाडा, स्टेशन रोड, वकील एस्. पी. नाईक बदलापूर (पुर्व), ता. अंबरनाथ, जिल्हा– ठाणे. मो. ९८६०२७२३१४

रोज वाचा

हौर प्यारा सिंग मथारू या ४४/ई लोकमान्य सीए ोसायटी, सार्दबाबा रोड, जवाहर नगर, खार (पर्व) **मुंबई-५१** च्या मालक असून यांचे १५.०६.२०२० रोज बई येथे कोणतेही वारसदार न नेमता निधन झाले. यांचा मुलगा <mark>श्री. हरपाल सिंग प्यारा सिंग मथार</mark>ू यांर्न तदर मालकाचे निधनानंतर कायद्यानुसार मयत मालका[.] **ठायदेशीर वारसदार असल्याचा** दाँवा केला आहे. नर कोणा व्यक्तीस सदर मालमत्ता किंवा भागावर विक्री गणी, दावा, कायदेशीर प्रक्रिया, अदलाबदल, बक्षीस यास, वारसाहक्क, मालकी हक्क, तारण, अधिभार बक्षीस, इच्छापत्र अंतर्गत मृत्यूपत्र, भाडेपट्टा आणि केंवा कोणतेही दावा आणि/किंवा आक्षेप स्वरुप अधिकार, हक्क किंवा हित असल्यास अशा व्यक्तींर्न बालील स्वाक्षरीकर्त्याकडे त्यांचे दावा/आक्षेप पृष्ठ्य^० राव्यांसह लेखी स्वरुपात खालील स्वाक्षरीकर्त्यांन . बाली नमुद त्यांच्या पत्त्यावर सदर सूचना प्रकाशनापासृ ४ दिवसात कळवावे, अन्यथा असे दावे त्याग केर्त

ठेकाण: मुंबई श्री. हरपाल सिंग प्यारा सिंग मधार पत्ता: ४४/ई लोकमान्य सीएचए सोसायटी, साईबाबा रोड. जवाहर नगर. खार (पर्व) मुंबई-५१. संपर्क: ९९६७८१६७६६

गहेत असे समजले जाईल आणि आमचे अशी

व्यवहार पुर्ण करतील.

देनांक: ११.०१.२०२२

तमाम जनतेस या जाहीर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की, माझे अशील श्री. प्रदीप बाळकृष्य ब्रम्हे आणि श्रीमती. सुरेखा प्रदीप ब्रम्हे यांच्या मालकीच्या क. डों. म. पा. हद्दीतील मौजे नवागाव येथील स.नं. २६१ हि. नं. ६ (पैकी) यावरील ओम रामानंद को. ऑप. हौ. सो. लि. मधील फलॅट नं २०३, दुसरा मजला, क्षेत्र ५४७ चौ. फुट. बिल्टअप या सदनिकेचा ॲग्रीमेंट फॉर सेल चा मूळ दस्त हरवलेला / गहाळ झालेला आहे. सदर दस्तात मे. लक्ष्मी केशव एंटरप्राइजेस तर्फे भागीदार माधवी शंकर जोशी यांनी प्रमोटर / बिल्डर्स म्हणून सही केली आहे व प्रदीप बाळकृष्ण ब्रम्हे आणि सुरेखा प्रदीप ब्रम्हे या दोघांनी सदनिका खरेदी करणार' म्हणून सही केलेली आहे.

सदर दस्त दि. २० जून १९९३ रोजीचा असून तो दुय्यम निबंधक कल्याण ३ यांच्या ार्यालयात दि. १३/०७/१९९३ रोजी नोंदणीकृत झालेला असून त्याचा दस्त नोंदणी क्र. १९४५/१९९३ असा आहे. सदरचा मूळ दस्त हरविल्याबाबत माझ्या अशिलांनी डोंबिवली पोलीस स्टेशन, डोंबिवली येथे दि.०८/०९/२०२२ रोजी प्रॉ. मि. रजि. नं.००२७/२०२२ अन्वये नोंद केली असून तसा दाखला पोलीस ठाणे अंमलदार, डोंबिवली पोलीस स्टेशन यांचेमार्फत देण्यात आलेल आहे.तरी ज्या कोणास सदर मूळ करार सापडला असेल अथवा कोणास त्याबाबत काही हक्क/हितसंबंध असल्यास त्यांनी नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत खालील नमूद केलेल्या पत्त्यावर खाली स्वाक्षरी केलेल्या वकिलांशी संपर्क साधावा. या प्रमाणे मुदतीतशीर न गगल्यास त्यानंतर कोणाचाही हक्क / हितसंबंध नाही असे गृहीत धरले जाईल व मुदतीनंतर आलेली उरकत गृहीत धरली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

ऑफिस : शॉप नं. २, लक्ष्मीनारायण मंदिरा शेजारी ॲड. के. व्ही. भिडे टिळक चौक कल्याण (प.) ४२१३०१ मो.९८२०८७५८७१ ता. कल्याण. जि. ठाणे

ANUPAM FINSERV LIMITED

CIN: L74140MH1991PLC061715
502, CORPORATE ARENA, DP PIRAMAL ROAD, GOREGAON WEST, MUMBAI 400104
TEL-02267830000, EMAIL-info@anupamfinserv.com, Web: www.anupamfinserv.com NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules 2014, the Company has, on Monday, January 10, 2022, completed the dispatch of Postal Ballot Notice to the members of the Company for evoting who have egistered their e-mail id's with Depository Participant(s) or with the Company, for seeking an approval of the members of the Company by way of Ordinary Resolution for Issue of Bonus Shares by capitalization of profits, as detailed in the Notice of Postal Ballot dated December 22, 2021. The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Kushla Rawat, Practising Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating e-voting to enable the nembers to cast their votes electronically instead of dispatching Postal Ballot Form. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice, Members are requested to note that the evoting, shall ommence from Monday, January 10, 2022 at 9.00 a.m. (1ST) and shall end on Tuesday, February 08, 2022 at 5.00 p.m. (IST). The copy of the Notice of Postal Ballot is available on the Company's website at www.anupamfinserv.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and BSE. The voting rights of members shall be eckoned as on December 24, 2021 which is the Cut-Off date. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information ourposes only. The result of the voting by Postal Ballot will be announced by Tuesday, February 08, 2022 at the Registered Office of the Company at 5.00 p.m. (IST) and the same shall be displayed on the website of the Company at ww.anupamfinserv.com

> For Anupam Finserv Limited Pravin Gala -CFO and WTD

रोज वाचा दै. मुंबई लक्षदीप

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
THIS IS TO INFORM THE GENERAL PUBLIC THAT FOLLOWING SHARE CERTIFICATE(S) OF PFIZER LIMITED HAVING ITS REGISTERED OFFICE Pfizer Centre Patel Estate, Patel Estate Road, Off S V Road Jogeshwari West, MUMBAI-400102. REGISTERED IN THE NAME(S) OF THE FOLLOWING SHAREHOLDER(S HAS/HAVE BEEN LOST BY THE REGISTERED HOLDER(S). NAME OF THE HOLDER(S)
Surendra Manilal Mehta Jointly with CERTIFICATE# DISTINCTIVE NOS NO OF SHARES 503447 Abhay Surendra Mehta

TOTAL THE PUBLIC ARE HEREBY CAUTIONED AGAINST PURCHASING OR DEALING IN ANY WAY WITH THI ABOVE REFERRED SHARE CERTIFICATE(S). ANY PERSON(S) HAS/HAVE ANY CLAIM IN RESPECT OF THE SAID SHARE CERTIFICATE(S) SHOULD ODGE SLICH CLAIM WITH THE COMPANY OR IT'S REGISTRAR AND TRANSEER AGENTS K FINTECH PVT LTD, SELENIUM TOWER- B, PLOT NO. 31-32, GACHIBOWLI, FINANCIAL DISTRICT, HYDERABAD-500032, WITHIN 15 DAYS OF PUBLICATION OF THIS NOTICE, AFTER WHICH NO CLAIM WILL BE ENTERTAINED AND THE COMPANY MAY PROCEED TO ISSUE DUPLICATE SHARE CERTIFICATE(S) TO

THE REGISTERED HOLDER(S).

चंद्र नगर एस. आर. ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित. ड़ीम मॉल समोर, एल. बी. एस. शास्त्री मार्ग, भांडुप (पश्चिम) मुंबई -४०००७८

मयत सभासदाचे नाव श्रीमती. जयश्री श्रीधर सावंत | ०१ . ०७ . २०१९ | बी -६०१ | श्री. संतोष श्रीधर सावंत मुलगा गांनी संस्थेकडे वारस नोंदणीबाबत अर्ज दाखल केला असून संस्था या जाहिरातीद्वारे संस्थेच्या भांडवलं ालमत्तेत असलेले मयत सभासदाचे भाग व हितसंबंध हस्तातरीत करण्यासंबधी मयत सभासदांचे वारसदा किंवा अन्य मागणीदार /हरकदार यांच्या कडून मागणी /हरकत मागविण्यात येत आहे. ही नोटीस प्रसिद्ध

ाल्याच्या दिनांका पासून ७ दिवसात त्यांनी आपल्या मागण्याच्या वा हरकतीचया पुष्टयार्थ आवश्यक त्

कागदुपलच्या प्रती व अन्य पुरावे सादुर करावेत. जर वर नमृदु केलेल्या मुदतीत कोणाही व्यक्ती कडून हृह

।गण्या किंवा हरकती सादर झाल्या नाही, तर मयत सभासदांचे संस्थेच्या भांडवलतील /मालमत्तेतील भाग व

हेतसवंध यांच्या हस्तातरणाबाबत संस्थेच्या उपनिधीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. नोंदी व उपनिधीची

एक प्रत मागणीदारस /हरकतदारास पाहण्यासाठी संस्थेच्या कार्यालयात सचिव यांच्याकडे सकाळी. ११ ते १ पर्यंत नोटीस दिलेच्या तारखेपासून नोटीसची मुद्दत सपण्याच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध राहील. ठिकाण - भांडुप (पश्चिम) मुंबई -७८ चंद्र नगर एस. आर. ए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित यांच्या करिता आणि वतीने - (सचिव)

सदभावना एस. आर. ए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित. घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड व रेल्वे लाईन् झोपडपट्टी जवळ

मयत सभासदाचे नाव	मृत्युची तारीख	रूम नं	वारसाशी नाते	वारसाचे नांव
श्रीमती. सुशीला राम देवाडीगा	१७ - 0९ - २०२१	१ - ११४	नातु	श्री. सतीश सुंदर देवाडीगा
गंनी संस्थेकडे वारस नोंदणीबाबत अर्ज दाखल केला असून संस्था या जाहिरातीद्वारे संस्थेच्या भांडवलं /				
manda amada nara namanda ann a farita'a ararafta amanira'ah nara namatad aranan				

नित्यानंद नगर, घाटकोपर (पश्चिम) मुंबई -४000८६

किंवा अन्य मागणीदार /हरकदार यांच्या कडून मागणी /हरकत मागविण्यात येत आहे. ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांका पासन ७ दिवसात त्यांनी आपल्या मागण्याच्या वा हरकतीचया पृष्टयार्थ आवश्यक त्या कागदुपलच्या प्रती व अन्य पुरावे सादर करावेत. जर वर नमुद केलेल्या मुदतीत कोणाही व्यक्ती कडुन हक्क ागण्या किंवा हरकती सादर झाल्या नाही, तर मयत सभासदांचे संस्थेच्या भांडवलतील /मालमत्तेतील भाग व हितसवंध यांच्या हस्तातरणाबाबत संस्थेच्या उपनिधीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. नोंदी व उपनिधीची एक प्रत मागणीदारस /हरकतदारास पाहण्यासाठी संस्थेच्या कार्यालयात सचिव यांच्याकडे सकाळी. ११ ते १

दिनांक - १२ . ०१ . २०२२

By Order of the Board पर्यंत नोटीस दिलेच्या तारखेपासून नोटीसची मुद्दत सपण्याच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध राहील. 10th January, 2022 ठिकाण - घाटकोपर (पश्चिम) मुंबई -८६ सदभावना एस. आर. ए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित

Pre- Offer Advertisement under Regulation 18(7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended, and Corrigendum to the Detailed Public Statement for the attention of the public shareholders of **ONESOURCE IDEAS VENTURE LIMITED**

Open Offer by Mr. Vibhu Maurya ("Acquirer") to acquire upto 8,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each for cash at a price of Rs. 16/- (Rupees Sixteen only) per Equity Share plus an Interest component of ₹ 7.54 (Rupees Seven & paise fifty four only) per Equity Share aggregating upto Rs. 1,88,32,000/- (Rupees One Crore Eighty Eight Lacs Thirty Two Thousand only), to the Public shareholders of Onesource Ideas Venture Limited ("Target Company") in accordance with the extant Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations") ("Open Offer").

Registered Office: J.J. Manor, 2nd Floor, 146, Rukmani Lakshmipathy Road, Egmore, Chennai - 600 008, Tamil Nadu, India; Tel. No.: +91 44 4213 4343; Email: cs@osivl.com; Website: www.osivl.com

This Advertisement in accordance with Regulation 18(7) of the Takeover Regulations and Corrigendum to the Detailed Public Statement ("DPS") and is to be read together with: (a) the Public Announcement dated October 13, 2021 ("PA"); (b) the Detailed Public Statement published on October 22, 2021 in Financial Express (English daily) all editions, Jansatta (Hindi daily) all editions, Mumbai Lakshdeep (Marathi daily) Mumbai edition and Makkai Kural (Regional language newspaper (Tamil, Chennai) where the Registered Office of the Target Company is situated) ("DPS") (d) the Letter of Offer dated January 01, 2022 ("LOF") is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited, on behalf of the Acquirer in respect of the Open Offer ("Pre Offer Advertisement cum Corrigendum")

The shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following: Offer Price is ₹ 16.00 /- (Rupees Sixteen Only) per Equity Share plus an Interest component ^ of ₹ 7.54 (Rupees Seven & paise fifty four only) per Equity Share ("Offer Price") payable in cash pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (as amended) (SEBI (SAST) Regulations). There has been no upward revision in the Offer Price.

^ The interest amount shall however be payable to only those public shareholders who were holding shares in the Target Company when the previous open offer obligation had been triggered by Seller 2 (on May 27, 2017) and continue to remain as public shareholders till date.

Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company has recommended that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI (SAST) Regulations. Further, IDC

is of the view that the Offer Price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI (SAST) Regulations. The IDC's recommendation was published on January 11, 2022 in the same newspapers in which the DPS was published

The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations.

The dispatch of the LOF to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date (being Thursday, December 30, 2021) has been completed on Tuesday, January 04, 2022 (through registered post/speed post) and Thursday, January 06, 2022. (through electronic mode).

Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer" at page 31 of the LOF in relation to inter alia the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

A copy of the LOF (which includes the Form of Acceptance) will also be available on the websites of SEBI (https://www.sebi.gov.in), the Target Company (www.osivl.com), the Registrar to the Offer (www.purvashare.com), the Manager (www.saffronadvisor.com), BSE (www.bseindia.com) from which the Public Shareholders can download / print the same.

In case the Equity Shares are held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned on page 32 and page 33 of the LOF along with Form SH-4.

their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified on page 32 of the LOF. The Public Shareholders holding Shares in Demat mode are not required to fill any Form of Acceptance. In case of non-receipt of the LOF, the Public Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating

In case the Equity Shares are held in dematerialised form: Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through

name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents as mentioned in the LOF. Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform by the Selling Broker which will be made available by BSE before the closure of the Tendering Period.

The interest component of Rs. 7.54 which shall be payable to only those public shareholders who were holding shares in the Target Company on May 27, 2017 and continue to remain as public shareholders till date as stated in the Letter of Offer dated January 01, 2022 and who have validly tendered their shares in this Open Offer will be settled separately by Registrar to the Offer i.e Purva Shareregistry (India)

Private Limited Status of Statutory and Other Approvals: As of the date of the LOF, to the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory or other approvals required to complete the Offer.

In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on October 29, 2021. All observations received from SEBI by way of their letter no. SEBI/HO/CFD/ DCR2/P/OW/2021/39695/1 dated December 28, 2021 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations have been incorporated in the LOF.

Schedule of Activities:

Instructions for Public Shareholders:

Activity	Original Day and Date	Revised Day and Date
Issuance of Public Announcement (PA)	Wednesday, October 13, 2021	Wednesday, October 13, 2021
Publication of DPS in the newspapers	Friday, October 22, 2021	Friday, October 22, 2021
Filing of the draft letter of offer with SEBI	Friday, October 29, 2021	Friday, October 29, 2021
Last date for a competitive bid	Tuesday, November 16, 2021	Tuesday, November 16, 2021
Last date for SEBI observations on draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Wednesday, November 24, 2021	Wednesday, December 28, 2021
Identified Date*	Friday, November 26, 2021	Thursday, December 30, 2021
Letter of Offer to be dispatched to Eligible Shareholders	Friday, December 03, 2021	Thursday, January 06, 2022
Last date for revising the Offer price/ number of shares	Thursday, December 09, 2021	Wednesday,January 12, 2022
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation	Wednesday, December 08, 2021	Tuesday,January 11, 2022
Date of publication of Offer Opening Public Announcement	Thursday, December 09, 2021	Wednesday,January 12, 2022
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Friday, December 10, 2021	Thursday, January 13, 2022
Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	Thursday, December 23, 2021	Thursday,January 27, 2022
Last Date for completion of all requirements including payment of consideration	Thursday, January 06, 2022	Thursday,February 10, 2022
Last date for issue of post-offer advertisement	Thursday, January 13, 2022	Thursday, February 17, 2022

f Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all the shareholders holding Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except the Acquirer, Sellers and Promoter and Promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer any time before

Capitalised terms used but not defined in this Pre Offer Advertisement cum Corrigendum Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Public Announcement and/or DPS and/or LOF. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations. This Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued on behalf of the Acquirer by the Manager to the Offer

SAFFRON

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 605, Sixth Floor, Centre Point, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059, India; Tel. No.: +91 22 4082 0906; Fax No.: +91 22 4082 0999; Email id: openoffers@saffronadvisor.com; Website: www.saffronadvisor.com; Investor grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com: SEBI Registration Number: INM 000011211; Validity: Permanent; Contact Person: Varsha Gandhi

Registrar to the Offer



PURVA SHAREREGISTRY (INDIA) LIMITED

Unit No.9, Ground Floor, Shiv Shakti, Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai – 400011, Maharashtra, India; Tel. No.: +91 22 2301 2518 / 8261; Fax: Not Available Email id: support@purvashare.com; Website: www.purvashare.com Investor Grievance: support@purvashare.com

SEBI Registration Number: INR00001112; Validity: Permanent; Contact Person: Deepali Dhuri

Place: Mumbai, Maharashtra Date: January 11, 2022

APM FINVEST LIMITED

अशोक गाबा यांच्या नावावर आहेत.

(Registered Office: - SP-147, RIICO Industrial Area Bhiwadi Rajasthan-301019)

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of APM Finvest Limited under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (SEBI SAST Regulations), as amended till date

नोंदवावा. लेखी आक्षेप नोंदविण्याचा पत्ता खालीलप्रमाणे आहे.

Snares and Takeovers) Regulations,	2011 (SEBI SAST Regulations), as amended till date
Date	03.01.2022
Name of the Target Company (TC)	APM Finvest Limited
Details of the Offer pertaining to TC	Open Offer made by Acquirer (s) M/s Hindon Mercantile Limited and Mr. Kapil Garg to acquire upto 56,18,954 equity shares ("Offer Shares"), representing 26% of the total paid up equity share capital of APM Finvest Limited. (Target Company).
	Offer Price: Rupees 47.50 (Rupees Forty Seven and paisa Fifty Only) per equity share as mentioned in the Letter of Offer filed with SEBI.
Name of the Acquirers	M/s Hindon Mercantile Limited and Mr. Kapil Garg.
Name of the Manager to the offer	D & A Financial Services (P) Ltd SEBI Registration No.: INM000011484
Members of the Committee of Independent Directors	(a) Shri. Tribhuwan Nath Chaturvedi (b) Shri. Manish Garg
IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	Members of the Committee do not have any relationship or interest in the Company except to the extent of the sitting fees paid and the reimbursement of expenses by the company in their capacity as Directors.
Trading in Equity Shares/other securities of the TC by IDC Members	Members of the Committee does not hold any shares or securities in the Target Company.
IDC Member's relationship with the Acquirers/PAC	No relationship exists between the members of the IDC and the Acquirer(s).
Trading in equity shares/other securities of the Acquirer/PAC by IDC Members	Not Applicable
Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	IDC members believe that the Open Offer made to the shareholders of APM Finvest Limited is fair and reasonable.
Summary of reasons for recommendation	In forming the aforesaid opinion/recommendations the IDC has considered the following:-
	Offer Price is higher than the price as arrived by taking into account valuation parameters and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies, which comes to Rupees 35.73 per share.
	The Open Offer by the Acquirer (s) are being made at the highest price amongst the selective criteria and is in line with the Regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations, and hence appear to be fair and reasonable.
Details of Independent Advisors, if any	NIL
Any other matter(s) to be highlighted	NIL

"To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respects, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise and includes all the information required to be disclosed by the Committee of Independent Directors of APM Finvest Limited under the SEBI (SAST) Regulations, 2011."

For APM FINVEST LIMITED

Sd/-(Tribhuwan Nath Chaturvedi) Chairman of Committee

(Manish Garg) Member

Date: 11th January, 2022 Place: New Delhi